



Universitätsbibliothek Wuppertal

Demosthenis Et Aeschinis, Principum Græciæ Oratorum Opera

Demosthenes Aureliae Allobrogum, 1607

In Aristogitonem

Nutzungsrichtlinien Das dem PDF-Dokument zugrunde liegende Digitalisat kann unter Beachtung des Lizenz-/Rechtehinweises genutzt werden. Informationen zum Lizenz-/Rechtehinweis finden Sie in der Titelaufnahme unter dem untenstehenden URN.

Bei Nutzung des Digitalisats bitten wir um eine vollständige Quellenangabe, inklusive Nennung der Universitätsbibliothek Wuppertal als Quelle sowie einer Angabe des URN.

urn:nbn:de:hbz:468-1-1565

dem, vllam fore vtilitatem. Quum autem iste lege fua vobis nocere conetur, qua fit, vt hi quibus in animo est malefacere, impuniti maneant : propter hæc omnia quæ diximus, irascendum ei est, & supplicium infligendum, ve eius exemplo alij fint ad iniuriam tardiores. Nam talibus leni animo parcere, aut, etsi damnetis, exiguam tamen eis mulctam irrogare: non aliud est, quam consuefacere atque instituere quam plurimos, ne vos iniuriis afficere vereantur.

LIBANII ARGVMENTVM ORAtionis contra Aristogitonem.

Qua occa- PYthangelus & Scaphon, conspicati Herocle ferentem sagiton fi qui dedicarant, nomina fignificans, ad fenatum adducunt: etus sit a- ve sacrilegum. Qui cum eum postridie in concionem du-rarius. xisset: ille se à sacriscula missum, eas accepisse dicit vestes, ve ferret ad sacram venationem. Tum Aristogicon decretum facit, primum fine senatus autoritate: deinde atrocissimum quo iubet, fi fateatur fe vestes extulisse, eum interfici statim: sin neget, indicium de co sieri. Eins decreti ea vis erat, fi fateretur verum, vt mox occideretur: fin iret inficias, ve paulo post idem pateretur. Id decretum ve contra leges factum, cum accusaffet Phanostratus Hieroclis rei pater, focio Demosthene, condemnat ve contra leges factum: iudices litem æstimant Aristogitoni quinque talentis. Hoc primum 28 alienum contrahit Aristogiton. Deinde cum Hegemonem accusasset, & causam in indicium deduxisset: quinta suffragiorum parte non accepta, mille drachmis est mulctatus. Cum autem mulctam intra præfinitum tempus non soluisset : ex lege duplicatæ sunt mulctæ, & decem talenta facta, & bis mille drachmæ. Pro hac pecunia suum quoddam prædium reipublicæ transcribit, idque prædium Eunomus emit, frater eius: spatio reddendi æris alieni postulato, ve decem annis vniuersum dissolueret, quotannis conuenienti parte numerata. Ac duas quidem pensiones præstitit talenta duo, & drachmas 400. Reliqua debentur talenta octo, mille drachmæ & fexcentæ. Cum igitur Ariflogiton dicendi habere sibi potestatem videretur, & mon iam ærarius esse, debitore pro se constituto reipublica: & accusabat multos, & concionabatur, legibus eum qui ærario deberet, antequam foluisset : ignominia notan-Arifogi. tibus. Quapropter eum Lycurgus reum fecit, vt qui conton à Ly- ciones haberet: cum id ei facere non liceret. Quia verò nondum exarce deletus erat Aristogiton, sed mulcta etiamnum inscripta: & tamen emptor prædij, debitor constitutus fuerat: oritur quastio, virum emptor prædij duntaxat debeat, an verò is etiam, qui primus as alienum conflarit, cò vsque dum solutum id suerit? Atque hac de duplici debito controuersia est. Aiunt autem accusatores, eum & tertiam debere muletam grario: id quod Aristogiton non concedit séque per iniuriam inscriptum esse afferit, propterea-que diem Aristoni dixisse inscriptori. Demosthenes autem & Lycurgus, iustane an iniusta fuerit inscriptio, in medio relinquunt : sed aiunt, si Aristogiton Aristonem vicerie, tum Aristogitone expuncto: illum ex lege inscriptum iri: priusquam autem de re iudicium fiat, non decere cum in publico verba facere, qui iure fortasse sit inscriptus, & falsò accuser Aristonem. & hæ funt huius causæ quæstiones, de quibus conflixit Lycurgus, cum priores in dicendo partes obtineret. Demosthenes autem breuiter eas omnino attigit, vt antè occupatas: totáque eius oratio vitæ Aristogitonis Controuer accusationem continet. Dionysius Halicarnasseus non re-fa de au- cipit has orationes pro Demosthenicis, coniectura ex genere tore barú dicendi capta. Alij dicunt de industria oratorem tali forma esorationum se vsum, amulatione Lycurgi gloria slorentis apud Atheniensessalij cum ratione ataris primas in dicendo partes obtinuisfer Lycurgus, & omnibus ipfe argumentis fuiffet abufus, Demosthenem deinde necesse habuisse causam agere artificiofius & periodis includere: alij, priorem vt Demosthenicam admittunt, posteriorem nequaquam, quod nihil habeat hoe

quas modò recensui copiarum, ne si duplicentur qui- A & 38 /se, on rounes av diegnador amuares, ou d' कों हो और श्रिकाण विका पार दिये, को मी के नहार को कहते होंग. दिश्न रार्थिया देन कार्यक् क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट कितार सहक्ष्म ग्रेम बेंद्र मार्सिंग में वर्ष महाद वेमी महीं कितार सिम्प्रसहकी oir eioir aj nuwelaj arabrer oui ciena Meipunhan वंहिंग दिना ठेन्ना ठेन्ना देशिय , मुझे स्टिन्टिया, मुझे क्रिकेट स्ट्राय ποίνιστι τοῖς ἀλλοις τούτον, ὡς τὸ πράως ἔχειν πῖς τοιούτοις, και καταληφίζεθαι μέν , ολίχου δί π. nav, idi len naj megdidaonen isa, adinein i pai as

NOEC

APIN

115 767255

AALO

関を対なる

10201978, 7

white Nigh

大学 かかり

治学を

Wingiones,

With all to

क्षातिक जना

1781 tt. 224 Tt.

ner; axesaor

ग्रेय चारेय

मांबी संस्ता है है

The men ich

dielu, at De

1600,004 mail.

Nivorodie

פשות כאנולו

वांप्याचित्र प्रदे

四月日日子

湖南山

कार के शह का

व नेपश्चम

द्रश्याह मुक्री

ומעול לחשום

wax czsy a

Bright KA

streno popo

100 ta \$1527 |

lyst diversors .

משפחה ל

thorage to

र्थाय रेजिनिक

ומנים ושועות

ודוופגושוה

and wide

מדטם אמר ה

Komboi sa

例のいうなない

या दिलांदन

age Livery

TOUR BENOUD

Liberic +

a busis

如此为后行

में की किंद्रिया

136,48

win will act of the

AIBANIOT THO OE ZIZ

महे भू वंशान्त्रहोत्तार 20200.

Thuy yea. O rai ondown, idivites iteentia offer in inpaine Traseo ois rai zeuoa zea maara lu, d'intomira roi aiasi-דעוב, מוחם שבים דבש שבי שבי שבי על ובפיסי אסיר כו לב דוונים. paia natisaov eis the cuxhusian, nanew O too ms ispeias con reu-क्रिसंड रेबर्टिंग नवे देखेंगव, देशव मार्गादम कर्ड़ड के दिहार मार्गाम्कार देशकारे ά ειςογείτων γεάσει ψήρισμα, το εφτον μου άπουβουλοίτον, έπειπο Servitater nendurge av whi ouchog n ta i wana Zeverneir, Stada-หลัง autin auting. อีสต์ ปริยุทิศาม, xpive มีสา "ปรึ่งถึงแต่ยลงเขา auto ο μολογήσων τι κών τάλ καθές , το Εσιχεπικα τεθναίαι, εξαίνω δέγμο. μέρω, μετ ολίχον τέτο παθείν. τέτο το ξήφισμα γεαξάμος egrouw pavospal & o isegnations to nivo undovi & nume, come-ς κειον αφισυγείτονε πέντε ταλαύτων. Τέτο μου δα σε στον επόρλημα वं १९५० द्वार ११ १ र् १३०६ तथा है सहस्त्र में र्रा १००० व रहत नियमि कि असी में वर्षेत्र के Σποδομίνο, το πεμπον μέρο με λαδών τη Ιρφων, ώρλε γελίας is stoodby O de aute x This were public one Despitar, Stated out in όφληματα χτ τον νόμον , και γίνεται δένα τάλαντα , και δημείας δραχμαί. άξη τούτων τη χεκμάτων επορεάφει τι eis το δημαίος χα. ρίον ε αυτέ, και το χωρίον τέτο άνομ . άνειται, ο άθελφος ώπε, τε-हुं। यामाव वं ।थिए कि देव में पार्वी कि , किंदि हैं। व हिंत हैं महता के मार्विवा के कांप-חשו אש בישורם השל בישורם הושבוג דם ביוה של עובים . אים של לוו ושודולם λας απιώες κε, ταλαντα δύο και δραχικός τετς ακοσίας, το δί λοιπον εφείλεται τάλαντα έκτω, και δραχμαί χίλιαι και δζακίπαι. δοκίον οιμό έχειν ο αρισογείτων το λέχειν ζουσίαν, ή μπχεπ ορείλιο हं क ला जी मुहांडिए कर रही कर का मार्थ में महिल के का मार्थ कर में हिल कर के किया में פני , של יינעלל, דטי ספוא סידע דעל באונוס ונים, נובצפור על באדוסוי, וופועם דעי מדועני. לוס שף מעדטי סו שבו אשנטלף זפי ביוצל בוצמי, שי , אנילניו, אבρονταιος Σξοληκιμινού τοίνω εξ ακροπόλεως α εισοχείτον Ο , ο हैंग कर देशनामायों के इंशिल्यामार्थिक भी अंदित के क्षेत्र कार्य के कि צמפנים שימושבולוים, צודאות סעויוצעדים יחסדבפים ב מפומושים דו אם-टाक्ष क्लोर प्राणिक, में में के कल्किंग्ड क्रिक्स, व्यक्षड का देशमा मा महिला משנים לא דם לעם ספת אונום דם דם דם סונון בעד בו לודאונום בספוץ מעדים οί κατήρο 291, τη τείτον οφείλειν οφλημα τι δημοσίω. σε σε σετο dess-κιω λαχείν αંદીσωνι τω έγγεα ζαντι. δημοθιώνε 3 κ. λυκούρρε σε בדמו באון דפי מפונבשים, דפדב מפונבתאודים ושלו לבל מבום שאידיתו , בובוום של בא אם של של של אול אול אול אינים אינים אול אינים אול של אינים אול אינים אול אינים א OHNE NEZEN & Taza Strains erzerpatition, is + d dis extrem या व्यवहरूपा . यकार विमें जी रवे दिनाम्याय मार रेका प्रेराहण कामानाहरू א' פעדים בי אינוער בין אינוער איינער אינוער אינוער אינוער אינוער אינוער אינער אינוער Tours Brazes สเล่น ก่อวอร วิราสารา เอร สอยหมาแน่งผลาง 3 อง au पर्क तेका वह वह वह कार्या पर हिंद मर्था मान्य के महार देश में ति के के

oratore dignum. בוצים דב עומו בינושף בינו של סמסים ביל החווש בינושים Ausaiors of 3, exercit to x Tis narias revereis the megatorogian erace runologos, is mantois nep dyalors autos ere houto, o dum

कार्जिंग वैद्रालम है दूरम्य पर है मेरिक्ट

AHMO-

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ADEMOSTHENISIN A-

KATA APISTOFEITO-१०५ २० २०५ काळा छ.

1 adikani

OEZI

sala pionale

Salama mi

ingionarian

E CON XULAYION OF

a cooling day

na dzinymi s

ं रेंद्र की मार्थिक व

Brain Souls

notra Might

udiority was

Treat I Mildig

में के वहना के

crop O strait

At Libert only

erdequian how

דעו מדום ועו

ei er eis nidum Teruspadespio

A ETENT WIND

ول ما ما ما ما ما

TETS EXOCIAL T

ं प्राथाय क्षेत्

soids, y was

इक मार्गिया है।

ings ar interp

ed eigan win wi sous description

od ने अवनवड्या cor à apraide

es as candia

TE SHITHUR ON

भवजांक क्लेश

दं क नियम् अवन के

KLIB IS 3 RAIL

ים מולצין אבין אבין

हिनेश्वक प्रमाण प्राची के क्टिन

1 2 4 d di

المالية المالية المالية

AMELICONOS

Seriges di

ΑΛΑΙ καθήμερος, ω ανδρες αθωνάζοι, אפן עמדוו שפונו דים ב מוסטים שמשבף עו עבונה, λυκούργε, τὰ μος ἀλλα καλας αὐτον ήγούμευ λέχον εν ή πεθαύμανα δρών υ-

मां श्वाप्रिक्षिण के व्याप्त मही, उन किंग องสายเบ่า เลมร้างโรร ย่างแบ่งธร, มีระดางสายเบ่ารั वं वह मार्गिक क्रिजां कर के प्रमाण के के क्रिकी कर के क्रिकी कर के क्रिकी कर के क्रिकी क्रिकी के क्रिकी क्रिकी के क्रिकी के क्रिकी क्रिकी के क्रिकी क्रिक दिशेश्वर वं में कि को है प्यड्ठ र्रा में है भूम में करेंद्र के रीgepairen, il wegoired nounelar. C'ijage imonaubara יוֹן נוֹעָל יוס הואס פונער, מען דם דעל אלן אס מות חלה של פר בילבna C में iperieus anegaoreus deiv moinouds nénerat j TETO TO TO THE THE AND THE AND THE END SOU DU OF WE O'INO - B שביי ועו יונו פו עלף פוסוי ש נוצף בו האפוצק, בונו דבוב הסיחפים OINER Could, marny Eppa wonnotas nuas coent ei d'ofoi word, dixle, at Jeos John, Terovi de odv. no Malv 3 λοίων είρημορων, και παίντων καλως, ούκ οκινήσω πεός อันลัฐคำพิที่เล้า คุณา фล่างยั). อันอา วิธี อบัง อักอนบั ออเพร์να δοκεί τοίς άλλοις ο παρών άρων. σκοπείτε δί ούτωσί कर्लंद वैज्ञवर्ग है न्द्रश्रीय पर्व वीस्वडमरांव को मुक्के वीस्वड को, की में एकमा २०१४ एकों में किर्ध २० गिठड़ में करबेर एक एक उमकwhois we con denot the figor every reiv at tois of di-મંત્રીમાં માટે કે લાક કે કર્યા કાર્યા માલા માના જ જે જે જા મારે મેં પહેલા જો-मध्यव विश्व तते हैं महरह यह बेह्या कर मार्थ हैं दूर है को प्रिय कीna Coiles queis muete marror o malo To narno egov eidoπς, ε ι φείλοντα το βημοσίω τέτον, και γερεαμμίνων εν aneomond, na oun Lov aura Aizdu. ผีส เหลรอง บันล์ง स्वमाप्रविष्ठ नर्यहा है देव मायो नये जी स्वाय हो जें श्वा, स्वो प्रमे प्रय-Find delogio 3 new popos i poli eis owneier autid pe हिंगीका अर्थ निया मर्व हड़ाए हैं रका, अर्थ निर्दे कि कार में करब- C γμαπς λόροις δικαίοις, οὐ τον έαυτε βίον αίθεωπινον, อบัน ลีวังอุงบ่อง อัทอนเข็ ล่าล วิจัง. คื ลี อี ลัง หุ แทช อัทธิง do vie for of the vier of of the place of the addition and addition of the state of TI THE TOUNCIAS isphorn The Grida The owners έχουνω δε τούτων εχόντων, δοκεί μοί τις ούκ αν αμύρ-गाँग, सम्मा, ठेम गार्था महांग्हर का भी वेहाइठ महांस्का, निमायं Gede de na xing most en oneis कहा रहिताड. et mai प्रे ंदेशनक्रिक हों कोंद्र वर्षक्य क्यारहिंद मयो प्रभाविष्ठाद वेडी-หม่นองเจ๋ามีวัดเมือง หลัง มาเพลงกุกการอุธิราร รู 0 อุนรอ ise δικας α) και φίλακες της νόμων είση κλυθού αι εί δ बाह्या म मर्थमका करिरंड त्या, वे undeic प्रीय वर्ष में तर्गामार au photon, in 37 thoo is dipediotar dedoing un do-לאדי חסו שלי עבו מצאש עלעטי בל חסיחפשי דע כא דון חסאפו म्युर्व दिस्ता. वं जेटाने प्रमें नुक्र हैंद्रा मर्केंद्र व मरणारहद सक्री कारण के N'ai vineis कर्ल भारत है हिंदी रिपट्डेड अंग्राहीया. เการาชาบาลในให้ กล่อยกา หลวยแล้ง รับวุลอาลหลุ่ง ของstarbuir j rois didouon, overdos Bersiule d'ai, a ai-किर वेशिएकुंग, करने पर किरा मी विशिष्ण देश में मेरि कर्णका रेडου συνδείσαν Τας ύμας Εξετάσαι δία βεαχέων, εις os majzuilu nas adogias megnze The monis drug-जय क्यां कि को कार्यों के अपरांत, किए प्रदंत के मुद्रा करें

RISTOGITONEM ORATIO prior, Hieronymo V volfio interprete.



Amdudum, Athenieles, dum federe, Reiestio. & accufantem audire, vt vos, Lycur i udicesofgum: cetera parclare en dicere puta- monens. gum:cxtera preclare en dicere puta-monens, ui:vnû fum miratus, cum vehen éter in mulcă de homicontédétem viderem, an illud igno ne imptoraret, caus hous æquitatem, neque bissimo.

propter se habitam, neque propter à me habendam orationem fore firmam: sed eius pendêre vires ex cuiusque vestrum vel odio, vel approbatione impro bitatis. Ac ego sanè existimo accusationem verborumque copiam, propter consuetudine, & veltram auscultationem esse adhibenda: sed huius negotij iudicium, pro luo quemque ingenio, domo pride fecu attulisse: & nunc, si plures sitis, qui ametis improbos, & tueamini: periisse nobis omnia verba quæ fecimus. Sin oderitis:pænas iftum, si deus voluerit, daturum este. Cum autem multa verba facta sint, eáq. rectè omnia:non tamen dicere dubitabo, quid mihi videatur. Ego causam hanc nulla re prorsus conuenire puto cum cæteris quod ita esse, sic intelligetis. Ad omnia iudicia veniunt iudices rem ex accusatore & reo cognituri, de qua erit pronunciandum: aduersarij,oftensurus veerq. se præsidia legum habere firma. Caufæ autem huius quæ ratio elt? Vos controuer fix disceptatores adestis, cum magis quam nos accu satores sciatis, & grarium esse istum, & scriptum in arce, nec ei licere in publico dicere. Itaque vestrum quisque accusatoris vicem obtinet, & causam tenet, neque necesse habet eam cognoscere. Reus autem prælidij prorfus mhil habet ad incolumitatem, non iustam causæ defensionem, non vitam humaniter actam, non aliud boni quicquam: sed quæ etiam insoti terrorem incuterent, per ea se fore incolume arbitratur. Spem enim falutis suæ in insigni improbitate collocat. Quæ cum ita sint: rectè dici queat, opinor, reum esse nunc Aristogitonem: iudicium autem fieri de vobis, & existimationem agi vestram. Nam si iracundiá in aded magnis & manifeltis sceleribus declarabitis, & seueritatem vellram: vt iudices esse vos & legum custodes, vt estis, ingressos putabunt. Quod si quid aliud his plus valuerit : quod etsi nemo se fecisse satebitur, in suffragiis tamen apparebit:vereor, ne quouis eos tépore qui studeat esse improbi in republica tanquam lanistæ quibusdam exercere velle videamini. Omnes. n. improbi per le infirmi sunt: qué verò vos foueris, sit potens: quod vt ei, cui hæc licentia contigit, quæstű & potentiam auget:ita vobis est eius licentiæ autoribus, opprobrio. Priusqua auté, Athenieses, de prinatis istius factis dicam, vos diligenter expendere velim, & paucis, in quatu dedecus & ignominiam ciuitate publice coiecerint omnes istiusinodi belluz:quarum medius & postremus & primus iste est. Qui, quæ alia designent, prætereo: sed in cociones ascedunt, in quibus vos setetiæ dictione, no improbitatis ostetatione oratorib' pro ponitis: audacia, vociferatione, falsis criminationibus, calunia, impudetia, omnib, deniq. eius generis rebus instructi, quæ deliberatib.omniu sut inimicissima, atq. etia omniŭ turpissima, vt arbitror. His probris omnem publică honestate superant, leges,

τώρ το προδιός 65, 68%. * ὧν το μου άλλα ἐάσω άλλ είς τος ενειλησίας αλαθάμουση, εν εξε υμείς γιώμης δπόδειξιν, ού πονη είας τοῖς λέρουσι σερτίθε τόλμαν, καὶ κεαυγίω, καὶ Αδυδεῖς αἰτίας, καὶ συκοφανταν, τω αλαγχιωτίαν, και στά τα τα τοι αύτα σιωτοκοθασ μέροι. ων ούχ αλ δί ερι τις εναντιώτες α τω βουλοί ε-

prælides, promulgationem, disciplinam. Que si vos A megi spar, to meggedunames me dinorpias. ei popos approbatis, si vestro consilio fiunt: pergere, non prohiberi debent. Sin ea corrigéda vel nunc esse ducitis, & quæ iam dicta funt, multo antè & longo iam tépore turpiter ab istis & male diuexata, restituenda in integrum:omnia huius generis ingenia hodie füt negligenda, & verè pronunciandum est, & æquitatis amica legum sanctio maximi facienda, quæ omnes & vrbes, & regiones tuetur: & inexorabilis ac veneranda Iustitia, quam is qui sacrosancta initia nobis monstrauit Orpheus, solio Iouis assidentem, omnia facta hominum ait intueri. Eam vnufquifq; in se defigere putet oculos, itaque pronunciet, vt caueat, & prouideat,ne ca pudefaciat,à qua cognome habetis finguli, qui sorte indices quoq. tépore delecti eitis, ad omnium in repub.degentiu honestatem, & ius, & vtilitatem tuendam: & hodierno die tanquam depo situ iureiurando astricti, accepistis à legibus, repub. & patria Quod ni ita eritis animati, sed pro solita fa cilitate ingressi sedebitis : vercor ne res in diuersum vertati& nos,dum Arillogitonem accusamus, vos accusare videamur. Quò enim enidentius oftensam B à nobis isti us improbitatem vos minus curaueritis: eò maius dedecus suscipietis. Arq. hæc hactenus. Omnino autem, Athenienses, familiarieer agam vobiscum, & vera dicam. Ego in concionibus cum viderem, constitui me à vobis, & deligiad istius accusatione: ægrè tuli: ab eaq. ita me dis deaque omnes ament, abhorrui. Neque enim ignorabă, eu qui tale mun' apud vos obiisset, no sine malo abituru. Quod si tantum non effet, vt statim sentiretur:at si sepe fecisset, nec desisteret: celeriter iri cognitum. Necesse L.C.de di tamen esse duxi, vestris parere voluntatibus. Ac delasam & in tionis quidem causas, & iura legum, ipsum, id quod fecit, Lycurgum, * euicturum putabam, eumq.testes improbitatis istius citare videbam. Quæ autem & cogitare eos, qui super repub. & legibus deliberant, conveniat,& circumspicere deceattea dicere institui:ad eaq.explicada nunc aggrediar.Per deos autem oro vos,date, Athenienses,& concedite mihi, ita vt natura men fert.vtq.proposui, de his rebus disseredi facultatem. Etenim hand aliter possim. Vniuersa vita mortalium, Athenienses, siue magnam vrbem incolant, five paruam, natura & legibus regitur. Ac natura quidem confusa & inæqualis est, & à peculiari cuiufq.pendetingenio: leges antem communes & ordinata funt, & exdé vniuer sis. Quod si parua natura fuerinsæpe mala cossilia molitur. Quare tales facile in delicta ruere liquet. Leges auté æqua, honesta, vtilia spectat, & ad illa referutur. Que inveta si fuerint: commune iam inde madatum omnibus proponitur, par & æquabile. Atq.ea lex elt, cui parêre omnes debent, cum propter multa, tum hac de caufa maxime, quod omnis lex inuentum est & donum deoru immortalium, decretum hominum sapientum, regula [Aristogi- delictorum que de industria & fortuito committunbus per quas Ref- nienter, omnes qui funt in vrbe, debent. Aristogitoconserue dum, neq. vllam ei restare probabile excusationeine Atandum facile oftendi potest. Cum enim res duæ sint, Athenienses, propter quas omnes feruntur leges:tum, vt ne quisquam iniusti aliquid agat:tum vt iis qui ius violarunt, punitis, alij meliores reddantur: vtroque nomine supplicium de isto sumendu esse apparebit.

upers raina Bedede, & it ms uper eas redunçouns नकारक माग्राकाण कर की विकरी दिला में हवा मिल में हमकाक-अर्था जय मेया न वार में मा मुख्ये प्रथम विश्व महिम्मिया, माया नवे कार्यρημβρα πόρρω ιζ πολιω ίδη χεόνον αίχεως και κακώς έπο τούτων δρακειμένα βελτιω ποιώται. πάντα रवं गावण रक हैंना मवहार्विणीय स्माहत्वण के निर्वेद की वीमवंत्रण, निधा रवे तीं मान्य वे नुवानकं उपार की ए० प्रांबर करें। नाम के हार माना व्यामिश्रह में मर्वाव्यह में मर्वार्य में मर्वार्य व्यादिन में में वेमवार्य snow nj orpuste dinter, led o rais agranatas rein offering मयम्बर्ट सहिवा ठे० करों द करिये में में ठीठेंद अर्थाण कार्य मार्थ μβύλυ, παίτα τα τη αίθερπων εφοράν λω είς εαυ ? ένα-รอง ของเอลเาล 62 ยาสงาสาล โทคใใยสิธิ อบาลาโอเมือง 8 கைவும் விறியில் காக்கியில் குறியில் கிறியில் நில்கியில் நிலகியில் நில்கியில் நில்கியில் நில்கியில் நில்கியில் நில்கியில र्गार्शिश्वकड़ है बंदों जी मार्गिद्वार में मूल प्रवासका में दे नवर्ण नम् निर्मा मिले रे मार्थ दे दी मार्थ में का का मार्थ हिला का कार्य TEN na) Tautles The nuclear and a rata Drizles in opros होताक्वींद की व में गंजाका, मुख्य में माठतामहावद द में माड़िकिट. wis ei un'Fron Este & Conor, and Sto me own des din-Jeias eigennyn Joses ka Jeggige 6068 na hu in deg-Jua eis Emiartion Besti. Kai donomites n'heis agisozeitovos namzopein, o poju namzoeguins paraluly. οσω 28 ar ua Mor nudo o 1ξάντων τον τουτε ποι neias muger oneil desirionle roasto neilar i na 3, onas वं क्राणा प्रिणां करा मा करा थी। महारक्ष मिला वे. महार में, ลี ส่ง อาระ ส่ Levajos, M maions * oinesóm ros iego rahn-The megs vinas. & Ju of our moines of vinas rate म्बर्गिराम्बद् ११६,मं क्ट्रिस्टिरियोवंडद् में महम्ह स्वमान्स्वाक, is Adulew. if we it dia if mailes rous Drows, our stours-עונט . סע של היאים אין, פיח ס חסווים בה לוסטדסי משף שעווי, נשן मक प्रकार वेमार हर है . हा ने धार्म मार्था प्रहार की प्रेंड क्रिकेट्र αλλ εαν πολλα τοι ιίντα ποιη ιζ μή παυση), ταχύγω. Drive) હિંદાબાદ નું લેંગ લા મુખ્યા જે છે જે હો માર્ક તે કહી માં કે તે કહી માં કે માર્ક તે માર્ ए प्रकार हुआ है अभागत का उसे पीए कर कि में देश हैं हिला में दे νοίων δίπαια αυτ όπερ πεποίνιε, λυκούρχον αρείν ν ्राधीय, मुंद्रों दिन्द्रे मुद्राद्रमण्ड्य में मानमाद्रीय में दिन्स महिला हलानिता करवात प्रतिमित्र में ने असे प्रति मार के मान Asws & rouw Bereloulies megonied. Consmiss det. विकास कर्मा है योग हामांग, में एक दिनों स्वाप्य मार्थिक प्रथा ठिए ती, के वंश्वीहर वंशीयवा 01, 1194 करने प्रकारकार 401 कराइ சில்த மத கூடியாக, முடி கையிறாயவு கிடி சல்சுல சிகுக்கியvay क्लेड प्रविद्याल के हिर्दे वेंग के राख है स्थान के स्थान के स्थान के कि Μ ανθεωπων βίω, αν άνδρες άθω α, οι, κάν μεγάλω no ho oincon, nate unear, ovod naj vopos Sionei). 60-Two of in who overs bein aran Go nas avocuatos, Erest वैंग रीव है। एवड्न रेरिन के हैं दूर्ण कि , में ने गर्मना , मना में मान שמים שלנים דמטום שמסוי. יו שלני סעם סיסוק מיו שסיוצים, mondanis paine Boundielas. Sionep Gir Giribis pad'ins de aupravoilas diphoele.of j vous no d'ingion us क सक्राडण में किका मक्रिशा किराडण में कि दिनारिक में कि อิลา ซึ่งอยิท พอเรอง ซึ่ง พอย์รถา แล ล่าระปะ กูปท ของเา้อง เขา อีนอเอง. าว าริโ อีราง ของอรุ ผู้ กล่งโลร ออออกเร อย่าง-क्या श्री मान्या मान्य पर्व भारत निर्मा पर्व हिंदे पर्व भारत की नामक யில் மூர் சின்சூல செலில், சிற்ற யக சில் வ்சு சுண்றவல் ஒருவும்யா, επανόρθωμα ή τ έκεσίων και άκεσίων άμθρημάτων

1707 1 44 47

明 和此

Min (S)

Machine was

15 (12) Be

delinations, &

dist in

भे हैशामां दें।

Samine of the

(di) 25 on

Sister Si

135 71 C

WERK TO NEW

of clus, on ?

भावित कि संब

हां में हैं। में दूबर

RATIFICATION TO

विश्व के रुक्ति

क्षां केया स्टब्स् द

द्याम वी

व्या तथा गान

in ion

rozestas č. m

stepain stid

四十分由

m, occurrer a

कारी चया है

विकासिक विकास

THEFT THE B

MUMBERS !

mi ni jane

mic you would

to the most

Hitti rahanta

physolium w

part city

Boxoner, Jim

anisonau

Kuin ta'p

of reduction

歌山 (

Water Cat

N AI VARCET

the little contract

Kiday and

NE TAKET OF

SOUN ON

1:105

πόλεως δε σων θήκη κοινή, και θ' ων πάσι το εσσήκει ζων δίς έν πόλει άλλα μω όπ νων αρισοχείτων δίς ων τής દેશની દાર્શિક હાર ના માર્લા છે. માર્લા માર્લા માર્લા માર્લા છે. જે તે કાર્ય કર્યા માર્લા મારલા માર્લા માર્લા માર્લા માર્લા મારલા મારલ วอี ซึ่ง โเขานี้ ซึ่ง dpec ลิปิเมณีอาวณ์ ของของ หลังโอก ที่ วิลงโลง อเของเอา, หลี, หล แทงโขล แทงโข อี แท้ อำเลของ อีก พอเล็ก เหตุ δις σεραβανόντας Τασταπολαζοιθρους βλήσος δις άλλοις ποιείν άμφοτέροις τέτοις δεξ ένοχος ών φαιν-

อองค่นสา สมาใช้ วุ่ยวองรง. อากิ ปี อโร อบัน ยันเป็นรู้ ซึ่ง ซีเร เล้า อีการใช้ สล้า บันที่ยี่ สำราน กายอยู่เลขาอระ แทปะและ καταλείπεδαι σεροασιν, δί ω αν τις αυτον άφίη. ουδέ ्ठे की गर्ड हिंग हो महींग , wis ap on Gu Trav में मर्ग ताड़ oud to हिर्दित्ति स्वा हें नुखे नुहै, हैंस क्षीं कर्वणस्व केंग्नियम्ब स्वे हैं πόλεως οφλήματα, εί τα δύδυ σοφίσ ματα σε 90 δέ-दृश्या को हैन , हो बेट्य देशे नाम्बद्धे देश मी हैक्स रेकिस्स्कर बेक्शे-म्य हिंद विमालमाहत्वं दिन्द मत्ये विहरेगांडवाद, में दिन्दें विमां दिन्द έκιςα δεινοίς ώφληκότας, Εύδις άφιεναι δεί, ουχί τον मामार्थम्य है। में मोर्थाइय म्मिन्साम्बंच्य , दे अस्तुर्वस्य स्थ क्रिमार्काक, & उसे Servora Gis (में के के प्रेकार कारoourias ny Barouias d'envorteer, et cis auporteeuc con wanne;) ng on oud' ei naur Gis a'mois αρίττε,ούχι τω βιαζουδρίω δήπου συς χωρίσαμ σεςσή-यहा (पेरिया १ रि मही १ के) दि मर्याग्य गर्य है विकास है वंग्य. άλλ' όπη πας ό της πόλεως, Ε την νόμων πόσμο, Β के के केन्द्र केने क्षायां का जाक मार्थ के केन्द्र केने के के के के के के के के कि के के कि के कि के कि के कि मी महत्ता में महर जीयया, जयम्बद्धां मार कितर्राह्म रेहिल , सं τε μαγον, ετε ως είτον είθεν, οὐτ idov. αλλ' ο πάντες ύμεις ise ομοίως έμοι εί ραρ πυμθρ εξετάσει βούλε-דמ, דו מסד בבו דם מוחסי, אמן דם מסוסנני דוני שצאנני סטאλέγεδα, τον δί μον είς των έπεκλησίαν αναβαίνειν, τά δικας πεια πληρού ωται, τας είνας αρχάς τάς νέαις έκου-कार जार्द्राराम्, कवारत ही का मार्गित की निवास्तिय पुक् סים (בדמן, און וצם שמן דסוב על עסובה של בחים א אמן דם דסט דסוב שמשותה שפושבשעו. בישיבו אטשבידים עם דסט דבם אומן בκάς ω δοθείσης όξεσίας δ, π βού λετα ποιείν. ου μόνον η πολιτεία οίχεται, άλλ' ουδι ο βίος ημίβ τε τ Эπείων oudir ai desepuos. मं क्रे को महिम्ला क्यां गरें of हिन माठाहाँग, रेप-Strav To vouw, of de row nucles tolouros Brise wes-Si Toire di roma no Tous Deous one regard or Cerv τω πολιν δεί παιτας ύμας η ωντον βόπον, οπερεί εκά-Inde leave manegaraj tov uso wer do usuos toutois, is C fieria this my owneins poear naipn th maisid, nμαν και επαινείν τον ή απειθοιώτα κολάζειν, έραν Φ १वं० वित्र मार्गामार्गेद मार्थ मार्गार्गेद का वर्ग में विवय स्वर्ध प्राथमार्थ मार्ग TOUWN ENGIS @ UNIN MOIET. ON O DETTON, W and per a-Slwayor πολλά και καλά, και σεμνακή μεγάλα, υμήν άpuperry, not stap Jelpes to nat autor are in Suo é-एक करिवर्त लेपाय गढ़ दर्शिश्य नवे प्राथ शायायात. में निर्धा βελίω τις πεν ζεκοσίες, λόπο δ ά δενοις ταυ ποι κι Γκλί-किंद्र भी देना है हो मार मार्थ कर मार्थ कर मार्थ के कि कार के कि कार के मार्थ σεναιτό τω όζ αρείε πάρου βουλίω, όταν ον τη βαonder soa radifordin wergowionra, ny nozalu n-म् द्वा हें विकासित हैं। , मार्थ विमवणस्वद टेम्प्सार विकास रेसार प्रथτεν τότας αρχας απάσας όσας οι λαχόντες αρχουσι บันมี, ล่นลาส าล่าบาทกุลาใน คำาลเง นลาสุดการ เรีย * ๆไป τομων χοσπίν, εφ' ολς είσεπεμφθησαν, και μη τοις ά-மிறுகள்ள திம் வேஷ வ்லுவ பமட்ட கவ் கேறி முடிவட்ட σιμά, και δί ων η πόλις ποσμείται και στώζε), ετοι φυ-Author in ownegous's mee's tore poreas, you tore mos-िर्माख्य प्रमिर, में क्रिने मेरि एहें कर वो स्ट्राण में सिम्बर्धित, The word was a self of the standen-मेयह, मार अल्याची माराठह, माँह * बांबा र संबद्धां म्याप्टेंग रहे में माराम-

त्यं देश के ने विकास के कि

region on the

ns imino

TO TUTTO

Margania

19 Ta Siela

ias & fall

THE OWNER

ERMA MIST

OWN TES WALL

estant con

किए कार्या है। दिकार की

ov inche wind

10 माम्यान्या

15 occur viging

THIS WILL

Stor, and

LOUTON MELON

इंट की ओड़कों

raion), m

ी) मध्येत

i Scroliff

וערקנוסאע

as mis Gin

दृश्ची राग थे

xd.Comme

न व्यापय गाउँ

co priorition

L TOUTEN H

8 majorin

व्या १ म्या १

म्पाइ कीवारी

ανωμαίδη.

לעפו , אפווטו

quons ari

64 G10

10 MOI 18 9

₹6 द्राम्हेल

でもうかり

631 VONOS

otor didas

। हिंद्रा महास्त्र

ofra. Shi phi 38 oic 35 ap mic mapibn Gus vopous, Toi A Nã & propter leges violatas, ab initio mulcatus este & quia mulctam inflictain negligit, eò nunc apud vos pænæ de eo expetutur. Itaq. nulla causa reliqua est, propter quam absolui ab vlio possit. Neq. enim illud negari potest, hoc hominum genus esse reipub. perniciosum. Na vt taceam, omnes intercidere mulctas reipublicæ, si cauillationes istius approbabitis: vt omittă, si qui forte grarij dimittedi sint, humanissimos & optimos, & minime ob atrocia delicta mul ctatos, esse dimittédos: nó hominé improbissimű & flagitiis coopertu, & iustissime mulctatu, & ob grauissima scelera. Quid.n. fieri possit calunia & violatio ne leguspropter quaru vtramq.ifte mulclatus eit, atrocius?vt non dica, tametsi ali somnib.condonetis: vim tamé faciéti non danda esse venia(ea.n.contume lia elt)vt qui sunt eius generis alia, omnia præterea; ıllud tamen,omne etiam reip.& legu ornatu contur bari & euerti, quantu in isto est: id ego me vobis eui deter ostensut arbitror. Dicam aut neq.nouu,neq. admirabile, neq. peculiare quicquam: fed ea quæ noîtis omnes æque mecum. Si quis enim vestrum indagare velit, que causa sit, quidve efficiat, vt senatus coneniat, vt populus in concionem ascendat, vt iudicia frequententur, vt veteres magistratus nouis cedant, vt omnia per quæ vrbs regitur, & conferuatur, hant: leges in causa esse, qua legibus prastatur, obedien tiam, inueniet. Quæ si abrogentur, & posita cuiq. libidine viuendi licentia detur:non respublica duntaxat interest: sed nihil etiam inter nostram & belluarum vitam intersit. Quid enim istum ipsum facturum putatis abrogatis legibus; qui vigentibus illis est talise Cum autem in confesso sit, leges proxime & secundum deos, conservatrices esse reipublice: decet omnes vos, perinde ac si ad collectam complendam sederetis, obtemperantem illis, vt qui salutis stipem ferat integram patria, honorare & laudare, contuma cem punire. Collecta enim ciuilis & communis, ea sunt omnia, quæ ex constitutione legum quisq. facimus: qua qui negligit, Athenienses, multa præclara, splendida, magnifica vobis eripit, & quantu in se est, p essundat. Quorum vnum atq.alterum,quæ notissima vobis sunt, exempli gratia profera: Quòd senatus quingentorum, propter infirmos istos cácellos, fecreto deliberandi potestatem habet, & vulgi interuentu non perturbatur: Quod senatus Areopagiticus, cum in porticu regia sedenti funiculus obtenditur, tranquillo otio & solitudine fruitur, & omnes è medio excedunt: Quod magistratus omnes, quos ij gerunt è vobis, quib. illi fortitò obtigerunt, simulac minister eos egredi foras insterit, * legum sunt compotes, per quas intromissi fuerant, & non importunissimi per vim se ingerunt: alia sexcenta, omnia deniq. præclara & augusta, per quæ vrbs & ornatur & conseruatur, legibus accepta sunt refereda: modestia erga parentes, erga natu maiores adolescentiæ verecudia, ordo, disciplina, legum adiumento flagitia superant, impudentiam, audaciam, cotemptum. Nam temeraria res est improbitas, & audax, & violenta: contrà, bonitas tranquilla & tiniida, & tarda & damni patiens.Leges igitur tuendæ funt, & à vobis, qui quoq, tépore iu dicia exercetis, confirmadæ. Harű enim presidio boni fut improbis superiores. Sin minus: di sipata, aperta, Incomocofula funt omniatin perdiriffimoru & improbiffimo da leguad rum ciuium potestate est respub. Agite verd', deum uersariaru immortale nones, qui in vrbe degut, Aristogitonis & concita

εία, και πολμιπεον, και πλεονεπτικόν, και πυμιαντίου ή καλοκαγαθία, πού χιον και όπυπεον, και βεαθό, και δεινον ελατίωθιωαι τοις νόμοις οιω δεί τηρείν, και τούτοις ίχυροις ποιείν τοις ακε δικάζονίας υμήν. μη 20 πύπον οί χεησοί την πονηρών σείεισιν εί δε μη, λέλυται σεάτα, αξέωνται, συγκέχυται, την πονηροτάτων αραίαμδικάτων ή πόλις χίχνεται. Φέρε 30 σευς θεωίν, εί έναιτος του τη πόλει των αριτογείτου [].

Sumant audaciam atque impudentiam, & ita vt iste A τόλμαν και άται χωνίαν λαβών, και γαλομοά ιι. secum cogitet, licere & dicere & facere aliquadiu quicquid libeat in populari imperio:atq.ii qui fic animum induxerint, existimationem suam negligant, & nemo in vllo facinore deprehensos statim occidat: si igitur ita quisque cogitet, & sorte non delectus cum delecto, & non designatus cum designato, eadem esse dignitate & potestate studeat : si denique non senex, no iuuenis officio fungatur, sed omni ordine repudiato è vita: suam quisque libidinem pro lege,pro magistratu, pro summa rerum omnium ha beat: ita si faciamus, nunquid vrbs incoli porrò pote rit? nunquid vila porrò futura est legum autoritas? Quantum aut violentiæ & insolentiæ, & iniquitatis,& conuiciorum quotidie fore putatis, loco eius quæ nunc est, tranquillitatis & disciplinæ? & quorfu dicere attinet, legibus & observantia legum ornari omnia, cum vos ipfi, modò omnibus Athenienfibus fortientibus, & quod fatis scio, cupientibus omnib. huius iudicij ordinem adipisci, soli nobis ius dicatis? B cur?quia sors vobis obtigit: quia sortitò selecti estis: quia leges ita iubent. Qui igitur ipsi ex legibus ellis in hunc ordinem asciti: nacti eum, qui contra leges vi dicere aut agere aliquid instituit, dimittetis? neq.vestrûm quisqua ira & indignatione sua declarabit cotra nefarij & impudétis hominis violéta legű abrogationé? Tú ne impurissime omniú mortaliu, qui víqua sut, cum effrænati tui oris audacia non cacellis, no foribus, quæ clam aperiri fortasse queat, fed rot & tátis mulctis, iisq; in fano Mineruæ affigna tis, coherceatur: vltra hæc penetras vi, & in ca te ingeris, à quib. te leges arcét? exclusus omnibus ciuitatis institutis, cognitione triu iudicioru, accusatione Sexuiroru, acculatione exactoru, actione iniuftæ infcriptionis, quă ipfe persequeris, & tătú no ferrea ca tena ligatus per hæc omnia penetras, hec couellis:& cofingedis causis, & falsis criminib. coponédis, te républică euersură putas? Atqui magnă & pspicuu vo bis dică exeplu, cur ad ista nullo modo sit coniuendu. Si quis subitò huc irrupes dicat, è natu minimis, C. aut ditiffimis, aut munerib. perfuctis, aut tali aliqua parte segregata, oratores esse eligédos: eu dubio procul interfecturi fitis, vt répub. euertété: idq; iure faceretis. At quiduis horú leuius est, quam si quis earum ex quib. ifte est, partiu dicat, vi se ingerentibus, dicedi facienda esse potestatem, aut è carcere elapsis, aut iis quoru patres occidit populus, aut qui fortiti magistratum, improbati sunt, aut qui reipub, debent, in vniuerlum ignominiosis, its qui improbissimi & funt, & habétur. Hec enim in isto reperiutur omnia, & iis insunt qui eius referunt ingeniu. Nam ego qui de, Athenieses, existimo, eum ob hacetia que nunc facit, iure occisum iri: multò aut magis, aut nihilo certe minus, ob ea quæ se facturu esse ostedit, si licetiad vobis acceperit, & occasionem, quod dij probibeant. Atq; aded mirandu fuerit, quéquam ignorare vestrum, iftum ad nullum honeiti, aut vtile, aut re publica digna adhiberi posse munus. Dij.n.omnes, vsum es- & Inpiter Opt. Max. prohibeat, ne respub. ea viroru se Aristo-laboret inopia, vt ab Aristogitone honesti aliquid rebus ne- htadministrandu. Quibus aut in rebus aliquis belluæ que bo- istius vsus esse possit: ex ne vsuueniant, est exoptandum quæ si forte eueniatimaior est reipub felicitas, cos qui scelus aliquod cogitat, facinorum carere mi nistro: quam istum absolutum, paratum inuenire.

एक म्यां में वात्रक दिखें, उस हिंद्दा अपने तेर निष् मान नाहिंग महρει πνός ό, τι αν βού ληταί τις εν δημοπρατία, εdv mo NATION AND τέ πολός τις εί) δόξη ό ταστα ποιων όλιχορήση, η ου-रिहोद हे में वर्ध रिश्में मेर्डि बेरी मामूख म्हणू की प्रेयंद्र केंग्न महाहा हा म्हणू. τα δ/συουθείς ο μη λαχών της λαχόντη, & ο μι χαιροπ-महत्तंत्र दा , म्यां वेरेकड को मह कि , ताने का कि कि नहें कि कि σύκοντα σεάτζοι, άλλο πῶν το τεταγεθρον εξβάσας έκαι τος εκ τε βίου, των έσωτε βούληση νόμον, αίχως मर्ता में किर्वाधिकां हो नकारत मार्गिक , हिम हैंन निक्र 物品品 πόλιν οἰκεῖωα, τί δε, τοις νόμοις πυρίοις ε); πόσω of al olede Blar no ileur, na Savoular ir andon Harris Port in airs a τηπόλει καθ έκας ων ήμέραν γιγιεθαι και βλασον-(1) THE -16 plar, arn this vue Wonulas not ratewes not il di hi-अर्, में न कोड़ र्रम्भाड़ बीनवरक सठक्रिमें त्यु, में कर्म कर्मा ity zonwire Dedujan upers auto water apt anneoudper aoppolar model મિલાલુંજા, και το αίντων δο οίδι όπ βουλιθρων είς τους 対ながりを Auxiv to Sinashelov, poros Sina Cel naiv. Nan, on la χετε, είτα άπειλης Эπτε. ταυτα 3δοί νόμοι λέχουση. 19m A ค่อง บุ่นคัน สมาก พา เอเร ของเร ครายภาคน อาการ เก่า WHE GUT TOUS TOUGHT A STORY IN ODE OF THE TO BIAL CONTROL ASONTS awis, is the priore to say oudeis upil 20 xlw, oude applican pari-शाका देर केरने σεται, εφ' οίς ο βδελυεός και αιαιδής αίθερου ούτος Memorin en; n Bia (हरका कार में माराह ? हैं के map कारक कवारक में हैं των αίθρώπων κεκλεισμβρίης στυτής * παρρησίας οι मार्मालण, वर्ण में अंव्याद, वे मुद्रा की व्यावाद हार का महत्वेमा वे τοσούτοις η πηλικούτοις οφλήμαση, η τούτων ωρά τη Deal κειμέρων, ές το εντός τούτων βιάζη η το σεστέρχη σρές ταύτα, αφ ών απελαύνεσι σε οι νόμοι απεχοι शाम्बिश्वद मवाना कांद्र देश मां मांत्रेश मीमावावाद, अध्यान विधिन வியுகாவ்வார் நடிக்கு நக்கும் சுரு முக்கு முக்கும்கள், THE THE BEXOLOGUES LEW OUTOS " SICHEIS, JEOGH, MUONO-HOUX a hood ord mpa ded win &, imodun a og Tauta, C श्वकावड, मयो क्रश्निवर्गड मोर्वरीका, मयो नेकिवींद वmas own Jels, ranowa ana ferfer olers na plum peγα καί σαφες υμίν ένω ωθράδειγμα, οπ ταυπουδέ nad' ès megonnes macideus, el jap no miniga d'ina-Au होताठा, र्छेड़ देस मीरी पहलाचारका, में में त्रोक्ष का कार्यातमा, में मी heλειτουργικότων, ή το τοιούτων πιος μερων άφορισας, निष्ट है निर्वाचित हैं। कि किला महामान को कार्न की वाली ंग, केंद्र स्वाच huor कि पंच की मुख्य स्वा की मुख्य कि वा परिया महाने-อญาน. หญ่ แไม่ อี, ก βช่ายปร าชาวง, หาไอง อีรา อีลเอง, หนึ่ τις और ών 63 το ઉજ્જે κορορον είποι, τοίς βιαζομοροις औς pay here, में कांद्र देश मारे Sequemeis. में कांद्र wir of hugαπείλεινε τοις πατέρας, ή τοίς δπο δεδοκιματμίνους, αρχειν λαχέση, ή τοις ορείλουσι το δημοσία, ή τοις κα-उद्यानकर्द वेर्गाम् १६ औं कार्त निष्मा एक कार्म के मार्थ के मार्य के मार्थ οίος కπος 631 * τίω φύσιν. ερώ 55, & aldpes athways νομίζω ωξύ αὐτόν μας έφ' οῖς νωῦ ποιεῖ, δικαίως αἰ देला ने कार्राण का रेप किंग का मिले रेप में में किंग निर्मारी कर है οίς δήλος όξη ποιήσων, εί των παρ ύμβο όξουσία रेश्नेस्त्य म्या म्यार्थे , है यम र्राजात. है म्या अवरावका 6500, हो मड प्रामी वंत्रावहाँ, ठेम ठिमो स्वी स्वर्भा, में द्रुण प्रवास्था, में द्रुण प्रवास्था, में

durg;

Willy are Time

widale, and

Spirit + 1

digen gan

व्यक्तिम् के न

18.04 18 Q

O DESTAY

my wager

sings old n

Her. R. dixer

BOOK BOYEST

וויעעון וויען

innuar ideo p

comis, cod

יום שם שדוות

क्षा वर्वार प्रमेद

la Seition 701

while wer

Light Wat T

का, बर्विद्राह्म

com mode

श्रीमा श्रीव १

WALL BEE

Glaste Briefle

astract in

th amount of

THE OWNERS THE

MI Hanca

HIS are part

明時かちに

Keral yexte

dinert de m

मान्यार विनाम

to Erun ax

祖がかか

Hamer S.

केंद्र πόλεως αξιον ανεθγ μα, ουθέν ουτός вы χρήσια (μο ρό, ω ζού, καί θενί, τοσ αύτη αναίις αιθρών χου το τη πόλει, ώς ε ωθα αρισογείτου Ο την καλών τι ποιήσα θαι) έρ' ά δ' αν και χενσαμτό τις τοιούτω 911ρίω, αποδίχεδαι τοῖς Θεοῖς αποχυέδαι δεῖ. εἰ δι ἀρα και συμβαίν μεῖζόν όζιν δίτι χημα τη πόλει λπο ράσαι του βουλομορίου εξαμθρτών, δί οδ τθτο ποιήσουσην, ή τέτον άφειμθύον αὐτοῖς έτοιμον ύπεαρξα

σανώς βόπου τον κειτούντα πιας καί συκοφαντήσοντα ζητείν είτε δικαίως, η αδίκως μηδέτ φεονήζων: οὐ δένα

αν ήτιον δύερι χεήσιμον, η τέτον έαυτα. εχά τί; ότι τον κατηρορήσοντα την άλλων, και ανάντας κεινούντα, άν-

द्रण में र स्थार्थ, को में क्लाक कि माय हो है मार्थ मार्थ हैं प्रस्तु हैं प्रस्तु हैं कलेंद्र की रिष्माण कार्यामहरू ; गंद री को बेंग्रेक मक्सेरिक (o un 20010) कांबहिंदी कार मिर्ट गांठे भार, को त्रवं दिशा दें हिंडा वाड़; कांत्र वेट्यान, वंता स्मेंद्र कर्णज्यक्द वेटार दि स्मेंद्र माठेश स्थापन σμες,ουδι αβως ουθεμία, αλλ επόνοια ηγείται μαλ-אסרים לאפי באי באיליסום ה דסט דסט אסאוד בים; ה עובן בסי μου όξη αυτοί του έχουτι καπόν δ εινόν η και χαλεπόν กลัก พังคา d'oud' * ลง่อกรอง . อาริ & พององอก เมื่อ ลั-का कारो प्रीम कर्ड़िंग्या में मीर देम रूप्रमूखी ज्यानारां कर. un रे मह के क्रिक्टिहर, एवं मह के क्रिक्र के हुन में वह के किए कि कार्राम्य मंद्र वर्ण की क्रिक्टिंग है स्थारिंग को में रवे रम मक्रिंती क्याविश्वास्त्र क्या के कि दिन्दाह ; मंद्र ते वर्ष करें, होंद्र विकार อิเมลางา, จบ่าวอา, พลา ของ รัฐองาณ สสมาใน อันพออิเม่ง พอเท่-न्यानः भव प्रार्थ बंगला वंगली मनारे किरामान माइने केरामानिक, क वां किंद वेरी धर्या , नवाई की माद मयहां केद विश्व के की वार्ध-าหรุ ชนิ ไทรกับ, อราม นองของท่ออบองง. ล่วงล่ารี, พูญ อากุรของง μονίαν άγλ σε αντας ανθερόπους ελείνα ή οδ το τον άπελ-Den da Geopain) un mede tor à per to por, at the rain τα τὰ τη αίθεφπων έθη βλέπονΤες εἰσὶ τάζς πόλεσι πάσας βωμοικαί νεω σε ακτιεν τη Θεων έν ή τούτοις κή σεργοίας άθωας, ώς μεγάλης και άγαθης θεού, και कीव गढ़ी रेंगर रेरेकम देश विशेष्ठाँद मुद्रे रेरेडिक मुझे पहिला-50° 1100 di 30's संमार्गण संद के रिट्रेंग, हैंद की अहरेद मुझे प्रकर ns, pur dupo nea cide to By nsov and our bor volas, itoli aday dejas. nj dinns je naj diropias nj ajdois संजा बेत्रवना वा मिन्द्रालाइ विकास को को प्रदेश मुद्रा राजा वे अर्थ-דמדם לא שלדון דון לעצון באמיבסט אפן דון סטסלי סו לב אפן κοινοί, ποις πάσι πμάν ίδρυμβροι άλλ' ούκ αναιχιωnas, oud our oparnas, oud imoprias, oud azaelsat a waita routo seise swoida roives on the wip offlin & Sugar odor the son somme cost poletas. ίξωθεν η κύκλω σείεισι λοιδο ερύμου Θ, και δ/26άλλων, και ύποχνού είνω κεινείν, είσαξειν, ωδαδώ οτίν, Ta Tolauta du. Est de mant autod tauta, eau mep uneis C ορθως απούσητε, αδόπιμα. τι 30 ουν Εξελήλεγηται कारण हमा क्यां का मार्थ मार्थ मार्थ देश हैं में मार्थ के मेर के मेर के मार्थ के मार्य के मार्थ के मार् क्य वंभी विश्व हिम्म हमी वे पूर्वक्वेद महमहामुद्ध मह, कार्द के कार्रामकण का कहवारी गण ज्यारं भार्य कंप कर, ry of Twias didorto dis narnzopnoas, naj aidpa-इसका भी , वां निर्वक्त के क्षेत्र हैं नुकार, कर्द्र कार के χω τίς θεοίς και άπασην υμίν πολλίω χάζιν, ω ανδρες άθωνησι, τοῖς σώσασιν έμε. ου δίου πώποτ ου-ฟ้า สลักษ์เ ห่องพา ออสทร, ล่งกา ล่อง อบทออสทาง การโรย. ταν οιώ πις νόμοις απύροις οῦ τοι ποιήσαντες ει τροίοί σε Thuseon, कार्य प्रक टेर्डिश्च हुईद; * किरो पर्दे; न्या महों पर रहे वर्ण पर α. δυ έτη βιάζεται λέχου δεί ουκ εξων αυτώ, άλλα איא שב "בושנולים וביד ביו יסוסטידסוב יסי עלף דמאמן אני בפיץ रक्षांविक, मध्ये क्ले प्रवासर्वकारण करें देशम हाव्यावीड, मध्ये क्ले συνώθελου, και δσων άλλων κατηρόρηκε παριμίν, άδη άδη οιώτας τω πόλιν. έμε δι ούχ εώρα τον ρήπερω πολέμεις ούδε τον λυκούρρον; ουδε του άλλες; कर्रिका वंगमाल में कर मान्य मान्य हे हहां. मुख्ये थियो एक व व्यक्त महम बेहार्ड हेड रेजर रेजर रेजर क्रिक महत्त्व करें महारे के महिल χον adinnua S εικνιωία, i μας μέρ noies, επό ή τοις idicitas επορούετο. τέτο δί εί μη δεν έχων, ενέκα τε το δαπος ύσα εδαι και φενακίσαι ύμας, ταῦτ ερεί. εἰ τοίνων άρα και τοιοῦτός τις όξιν ἀνθρωπος εν τη πόλει, οίος εκ

of the same of the

zveious il

growier

ह्येष रवेश

Eswes rain

कि में महिलांक

To a Amedica

Bouleulpung

nuis. Har

of sounds ye

man of unit

checkers again

apylinizate

s ailborgon

ns annilla

ाई हाश बच्चा

म्युं पर्णामाली विद्युत्त मुं क्या

e oi voust un

MATOR SAGAR

मार्व विश्वास

ent , Nearly

100, 194 460

en ofer kall

ua, on two

ng wing

5010TETUS!

the base and

में यह कामा

र्म्म क्षेत्र क्षेत्रकेत

Bra Lower

में कांद्र था।

O SESONING

In Motion

मयो हैन छ

, रखं कर

& aldpes

ं मार्था, वी

में अविश्वास

Spranois

MAGE THE TOWN

בידטון אפן ניסקי

การ เล่น oxinodes ai, a aidpec abluajos, ฟฟ ainné- A Quod n. facinus ta atrox, tam perniciosum est, Athenienses, quod fugiat homo cosceleratus, & patrio in populū odio refertus? Quis alsus républica (quod ablit)expeditius enertat, li consequatur autoritaté & po tentia? Nonne videtis eius ingeniu & actiones, no ra tione, non vlla verecundia, sed vna desperatione gubernarifimò omnes eius actiones non esse aliud, qua desperatione? quæ cu ei maximo ipsi malo sit in quo elt:tu acerba & grauis est omnib. & reip. intolerabilis.Omnis.n.homo profligatus & semetipsum proiicit, & qui cossilio retineri pote l'incolumitate sed admirabiliter & præter ratione, fi forte euaferit, confernatur. Quis igitur homo cordatus semetipsum aut co moda reip.isti comiserit? quis no quantum possit, ea præditű fugiat, & tollat è medio, ne quando inuitus in eu incidat? De salute reip. deliberatib. Athenieses, no quæredus is est, cuius desperationis socij sint ipsi sed is potius, cuius nienté & ingenij bonitaté, & magnā prouidētiā imitetur. Nā hæc ad felicitate perducut mortales omnes: illa cò, quò istu abire dicet.idq. æstimate no è meis verbis, sed in ones hominu mores intuentes.Omnib. vrbib. aræ funt & fana deoru omniu, atq.inter eos etia prouidæ Mineruæ, vt magne & præstantis dez,& iuxta Apolline Delphicu pulcherri ma &maxima*edes statim vbi teplu ingressus fueris: qui cum & deus & vates fit, vtraq. ratione nouit quid maxime expediatino Desperationis & Impudentia. Quin & Iustitia, & Aequitatis, & Verecudia mortalib.omnib.aræ funt, aliæ pulcherrimæ, & fanctissimæ in animo cuiufq. & ingenio: aliæ eæq.comunes omnib.ad cultu ppolita: sed no Impudentia; aut Caluniæ, no Perinrij, no Animi ingrati, quæ omnia isti infunt. Etsi aŭt scio istu recta & vera defensionis via de clinaturu,& extrinsecus vndiq circuituru coniciante & calūniātė,& pollicitantė se accusaturū, in ius addu cturu, tradituru magistratui, & eius generis alia:tamé, si vos prudéter audietis, ea omnia nihil illi profurura funt. Quid.n.iftorum non fape in omnib.quale effet, deprehensum est? Ac præteribo cætera: tu Aristogito me septies maiestatis egisti reu, mercenarius eorum, qui tum Philippi negotium agebant, orator, me & rationes referentem bis accufalti. Ac ego quidem, qui homo fum, Adrastiam adoro: & habeo diis immortalibus & vniuerlis vobis magnam gratiam, Athenienses, qui me conserualtis: tu autem nihil vnquam dixisti veri, sed mendacij semper es conuictus. Quod si hi sopita legum autoritate, hodic te absoluerint: nunc me reum perages? quo crimine? Sic enim considerate: Biennium iam iste vi concionatur, quod ei facere non licet: sed concionatur tamen. Deinde interea miserum Phocidem, & fabrum illum ærarium Piræenfem, & coriarium, & fi quos alios apud vos accufauit, peccare in rempublicam vidit: me autem non vidit, oratorem, in quem hostili fuit odio, nec Lycurgum, nec alios, de quibus plurima statim dicet. Atqui propter virumque dignus est exitio: tum quòd oftendere cum posset, factam esse vobis aliquam per nos iniuriam, omillis nobis, homines reru imperitos inualit: tum fi nihil potest, quod hac ad eludendos & decipiendos vos comminiscetur. Quod li forte quis homo est in vrbe tali ingenio, qui omni modo requirat eum qui accuset & calumnietur alios, que inre, quáque iniuria nihil pensi habens:neminem minus vtilem isto mueniet.cur?quia acculatorem aliorum, & omnium exagitatorem, ipsum

omni crimine vacare oportet:ne propter cius impro A γ αλεξβέλετον υπαρχόν δε 'lva un da των πύτου π bitatem illi elabantur. Nemo autem huius vrbis incola,nec pluribus,nec maioribus, quam iste,peccatis est refertus. Quid igitur iste est? Canis mediushdius, ve quidam aiunt, populi. Cuiusmodi? qui cos, quos vt lupos infimulat, non mordeat : quas verò fe tueri profitetur oues,ipse denoret. Quem enim iste oratorum tanta clade effecit, quanta homines plebeios, quos passim exagitat? Quem, posteaquam nuncab integro concionatur.oratorem accufauit? neminem: fed homines plebeios multos, in quos decretum cu scriberet, condemnatus est. Atqui dicunt, canes qui de ouibus gustent, esse iugulados. Itaque primo quoque tempore è medio tollendus est. Nulla enim eius, Athenienses, iis in rebus quas iactat, est vtilitas: fed isteré perfpexit nefaria, & impudentem. Na cum in concionibus convicia dicat, & petulanter omnes lacessat:quib in rebus ea ratione vos vniuersos deceperit: earum rerum cum descendit, singulatim ab vnoquoq veltrum pornas fumit, caluniado, poltulandonummos exigendo:no ita me dijament, ab oratorib. (hi enim cum eo coffictari possunt) sed à pleberis B & reru imperitis:id quod icti qui funt, nouerunt. At hercule hæc ita esse fatebi mini: sed cu vtile sit, publi cu esse accusatorem, neglectis his omnib.conferuandu effe dicetis? Sed quæ reiplæ estis experti, Athenien ses, ea nunquam ex verbis æltimate. Ilte in publicum non prodiit quinquennio, quo concionib.ei fuit interdictum. Quis igitur eum illo tempore desiderauit? quara reipublicæ partem neglectam vidit propter eius absentiam? Quid verò, ex quo nunc concionatur, factum est melius? Mihi quidem contrà videtur:quo tépore non prodiit, refocillatam è malis esse rempublica, quæ omnib.iste inferebar: ex quo rurfus concio natur, obsideri, orationes seditiosas & turbulentas in Infectação omnibus concionibus femper habente isto. Núc auamicoru daciorem ingrediar oratione, & cum iis agam, qui eu Aristogitonis, qui propter ista diligunt: qui quales putandi fint, ipli conequam siderate: ego verò non dicam aliud, nisi eos non sape-

hominé resqui se cum eo conjungant. Ac vestrum qui in hoc ration de confessu nunc adestis, ludices, talem arbitror esse nesendant. minem. Etenim & iultum est, Athenienses, & honestum, & vtile, me sic & loqui & sentire de vobis. E reliquis aut ciuibus, vt maledictum ad quam pauciffimos pertineat, discipulu, aut si vultis, doctorem eius Philocrate Eleusinium illum, solu talem esse statuo: no quin plures fint (vtinam enim Aristogitone delectaretur) sed quia in co, quod, vt vobis cotumeliosu, dicere vereor, neque aliosà me ciues acculari publice decet. Deinde idem efficiet etiam in vnum directa oratio. Ac quali eum esse præditum ingenio necesse fit, qui Aristogitone gaudeat : subtilius inquirere omittam, ne multis vti maledictis mihi fit necesse. Illud autem dico: simprobus est Aristogiton, sine con trouerfia, & acerbus, & calumniator, & talis qualem fe essepollicetur: largior, concedo tibi, Philocrates, talis cum sis, tui similem vt defendas. Nam si reliqui ciues omnes, & ita sunt affecti, vt oportet, & leges observant: nihil istud reipublicæ incommodaturum arbitror. Sin caupo elt improbitatis, & mango fordidiffimus, & propola, & ea quæ vnquain egit, tantum non statera & ponderibus adhibitis vendidit : quid istum, o inepte, acuis? Neque enim mehercule coco vllus vsus est cultri habetis: neque ci qui per se vult negotia facessi, & mala dari omnibus,

uneian staps leon chewottou jou antioner, oun ues lovar autrudator, où dels uattor 651 pesos in The พองส. พ่อง อ้าอ่ร อีรารุนย์ผง งที่ อัน อุนอา พายุร ลิ อิโนอยาก. δαπός; οδος οις μθυ απάται λύκοις εί), μη δάμνες à di ono oudaiten mescara, auros nandien. in of the puriegor chit sippasay n narrow noon no niling TOUS idicitaes, our our opanthe weighter as in a st อบี กล่างงานบี วิธาสุ , หล่ายเหล อัทบอย ; อบิ ปิ่งล ล่าง ! Dates morross, wer an figures as as dans editores 10 15 A TONIO and who were revolutions newers The west ares na-प्रवार्शनी का क्वलं रहाँए . लंडर कांग्र की क्रियंगा एक्स no मिं विश्व कि हो हैं। की, के वेश मुहद वे निश्च का मार्वित दिए की profe des हिंद करवे पाय किटवार made por interaction माने करेंग्ने हेंद्र. भारति कर्ष हार्थ कर भी देश माने देशमारे माने माने क्ट्राम्मार्के वंगवन क्ट्रिंगिट्टिं क्रिंग के क्रिंग क्रिंगिट विट्टिंग สตร์โลร บันลีร อักรั เปิดมองบอกราย, ระของ กลางใส หล 3' เพล บุนที่มี สลาดิ อหล 500 อโทโลย กลน อิลเค อากา-क्यानी , योनी , हाकाट्यमी का क्रिपेशा, किया की कार λέροντας (ουτοι οδ δλίσανται τετώ σωνδρεαπίζε-Day) वंभिर्व कार विशिक्षाद, मुझे कार वक्त शिक्षा रिका मस्मोम् म्थिला. बेरेरे वे भी शिव नकी दि मिले हे म्बद है दूस है का removers, * zenormov j, av Degimov Th moder reliver des σε άντα ταύτα παθιδύντας δείν αυτόν στόζειν; άλλ. ών έργω πείεαν ειλήφατε, ω ανδρες αθωναιοι, und ποτο ου λόρου τιωτα σποπείτε. Εδί τ μίν ουχί σεισίλ λ שדעיסד עם לוד. שונעם על פוא הוו חר העודה עם פודים שדעיבות το ρεόνω τέτον επόθησε, τι την της πόλεως ελλειοθοί श्रु रिक्ष विमाइनका से वह किया महत्त्वण, में ने कि कि एक में βั้งทอง วะวองอัรระคอง เมื่อ วิธี ฮอหะโ ซอนอัสหาอง อง เมื่อ อง megories zervov, avantaiou of The nances in notic, in anaow En mapeixer ao ou j nalu Intendopei, noλιοριείδα, λόροις σαστώδεις και τα εαχώδεις οι άπασεις ταις επηλησίαις αξί λερονίος τούτου, βούλουμη म्लिक मार्थ की क्रामित कार्य मार्थ मार्थ वर्ष की कार्य में देश के С अवने अविभेद्रिकीयां कार्ड अवि नवा कर कार्रिक वाका वाका वह notous who muas yen voulger, au toi onomeies i yu di हरिष क्षेप होतामा, मोधि वैन प्रकार वक्क १९४००ना, कर्डनारmortes an tore tritain of the out or the sing snew min or to ville of diva if to 100 to the sual of of माध्या मार्थ वेष मिल्ड के मिल्या मार्थ मार्थ में मार्थ के मार्य के मार्थ के मार्य के मार्थ के मार्य के मार्थ के मार्य के ray hay to eme, ray peover wer in will in j ry and TO NITIO, is wis eig shazisous The Brasophulas aga-שני יסי מש שודוני בין בסטו אבשה יסי לולמיתושי שות อเมอนอนาใน ทั้ง รู้อับอ่างเอง, แององ อี้) ทอเอบทา ที่อิงแม่ ούχ ως ούχε πλειόνων όντων (ώρελε 3 undeis αλλο αρίσος είτονι χαίρειν) άλλ * ὁ κα Ξ' ὑμοβ ως ονειδος उत्तर्थ रेहेर्य * इंटी हमां नी वंत्ररका मठशामी डीमापुंद्र होगा निमाणकां व सवामा १० वहाँग . हो रव सव्यो रवा रि महामान में कहते दें व proteis à ragos, to un ole our destri (es une bas ois ara-วายท कि क्रिका हैं। के apisogetou xajestra, tato, " μή πολλά η βλάσφημα άναγκά ζωμα διεξιεκα άλλ cheivo de qui el mornege Bir apisog el mar andals ny m-मर्थेद, में कामक क्येंग्राइ, में कार्याक्ट वीवद पंता वूपहार्म. वीविष נו, סים אשפים סואשוצים סול דעל דסוסטדט דחי לונטוסי סט-

ζειν την 35 άλλων άπαντων και φερνοιεύτων ά δεί, και φυλατίοντων τοις νόμοις οὐδεν αν ωθος τετ' οίμα χνέ-એવા લં નું મહા મામ માર્લ છે મા πονη είας και παλιγηά πηλω, και μεταβολούς, και μονονού ζυγα και τά τα μα έχων πάν τα όσα πώποτ έπεαξεν, επώλει ή τε Εν. ώματαιε, ακονάς, ούτε ηδ μαγείρω μαχαίρας, εδύν ές όφενος δί-

ornopale a state of

imexity.

वार्वीय देशि गर्ने

OURHEN SAS

in side years

an cortación

priz one

Markago ()

のははんなかから

gidt Body or

क्षेत्र का मान्य

PROMOTION OF

May odown

The pares

שלאבדעם טעו

NI STATE STATE

祖寺京田田

SECOND ON MERCHAN

क्षित्रका श्रम द्रव

HILLS YOU

a seed bloc on,

יום לופשם מוני

MENTS TO ES

digitalita o

MARKET TO THE

ABRICO TO A

STILL CHANGE

The morne

Applications

M, OUT al

his lak

οκοφαίτης ου δέν έξι χεήσιμος. αλλά μίω όπ τοιουτός Α calumniator venditurus omnia, quicquam prodelt. Bow Cott, sidon on pegoco. The nad nynuovos sioay zeγίαν μεμνησαι ως απέθοτο κο τοις κ? δημάθου γραφαί. είεδ ώς εξέλιπε τον ελαιοπώλλου αράθωνα ταυ (α 38 कार्याणिक के महार के के कि के कि के कि के कि के कि के कि मही मही मही कि พบเด็ม ค่า หลัง อำเภาพายาสแรง เอ๊ด ปรอง ราชเดิงขนั้ง, กลเด็ดขาง ก-Shower races or inflero, apavos in Spiro. The it of Inpoελίοις είσαγγελίαν αθασείσας ποι έξε ενικάλλα μυρία, wind who to you and were wonding ou of of of on may मां कां में दूबकृत वर्ण में हैं रहा दृह्म १० रिक्ट वे तर्म. मंद्र व्या के मार् การโจง อายิในง, ที่ กองพองิร,ที่ 28 พรอรุร รไล่ ชาร ซี เปล่า รี อันอา का कहारी नाइ, मी ने प्रशाहका हे प्रिट्ठंड देन क्रिक्ट में नूर्रिकाइ, πλω εί συκοφαίτου τις Επονηρε απ έρμα Ερίζαν, ώστερ γεωργός, υπωρχειν οίε Ται δείν τη πόλει. τέτο ζοί και λόν, ลื่องอายุล ลาใบอสุดเ,งอนเรีย วู หล่ เอเร ระจะร อย่อใ ออาอง. ห-में 25 mis कर्श्वालाइ कार त्यारिकांक को तीमवडमंदाव नकां में บันเงากองอนที่งาน, เงล รอเร โรอย์รอเร ล้ง ฉบับรีร เมอสู่ ปักรา απα τοιωαπίον, ενα ανείρηστε και κολάζητε, και μικό είς Β (กางกุนที่ อีการบุนที่ หลาย่อง ปิงกลาลาลาสบรอง ปิงกา หเขางบ प्रदेश करवारा ही मार्गाव के मारा के बंश का किया किया करते พันธาอาการผอก ลังกาที่เลือก รู้ เอกระสส, กอนุ้อบหรือสอ้าง אב דמאמו דו אפוי שסופוני, וו אבין לעיטה פוב דצים וואפו שסיותרומב, ลัง ผิงสะบานมีของที่อีก เออล์ง, บนออลหานี, ฉัสองกลัง, อบัน בות של המשור השל שונוק דם מבאודם במצפוףולוד בףמדווסוק, อีก ผ่าน สคุญของ ญางเมา อย่า ออก ออก เรื่อง ที่ยี่ คองออกνων αν δηςάζας ελέωσαι φάσκων ούκ εκείνοις ύβρίζων, ου επίνοις μου το εξίω μικεον αργύειον δουσι τούτω, μη ακούτη ταυ (a a M a τιο υμετέραν χ 4 of vian 200-אווים ביונים ביונים ביונים אווים ביונים בי νος τος η κληφορίας αρχάς απαράτίων, αίτβο είσπεράτπον αργύειον, τι κακον ου παρέχων; τὰ τελευταία ή ταυ-मं, म्लाम्बड संड विस्वार्राण मुख्ये डक्टाण है पडिकर हैं। दीन में ज्वड, માં માર્ગમાં દ્રમાલા જાલ જામ માર હોય, ઉત્ત મહાર્થ મેં દુ દિરા મહ દિલ્લ. σκοπείτε γάρ, εἰσὶν όμου δυσμύ εισι πάντες άθιυαίοι, C nino vicies mille sunt. Horum vnusquisque vno salπούπων έκαςος εν γεπ σε ατίων κος τίω α 20 εάν σε εερ-म्हायां मेरवा पर्म में में विस्तारित मीं में वार्षिय में में विश्वार के रेरे विश्व के रेरे की, अर्थ अर्थ को है हुन रहाहून करने हैं कि हिन , मेर्ड με રીજા, में मी καλών, ού ? में मिल्रामा के के विकार की किए किए dell τη τυχη δ/α ςίβει.ού τεχυης,ού γεωργίας,ούν α λλης εργαπιας ουθεμιας όπημελειτας ου φιλαν. Σεφπιας, ουχ ομιλιας ούδεμιας ούδεν η ποινωνεί αλλά πορούεται δ/ά τ αρορας ωπερ όρις, η σπορπίος, ηρκιός το κέν ζον, άττων dever name of, ono mon the outpoed , in Bras prices, in νακοι π το ερεριβαίδρος, και καταξήσας είς φόβον, αρ-भिटाल करवेहराया निर्म कर्निक कार्य कर्ने मान्त्रिक में ο τη πόλει κουρείων, η μυ εσπωλίων, η τη άλλων εργα-नाराका, वर्धिक क्षेत्र हैं। वंशे वैका हाइवड, वर्षि विपान के विभागneounder, où orxian, où an no oùder, ar aid em ros Kiens nymionav med in N of Canedon Tous acesens νεστρουσιν εν άθου,μη τούτων μετ αρας και βλασφη-मार्म्य के निरंप मार्थ द्वां द्वां क्वां का मार्थ महारा कि हिर्देश हो ने राक्षेत्रण में बंडिय उनकेंग संसर्व दिन स्पूर्वींग रिस्का, करेंगे संद मा बनाइस कं अधिक अंदे मार्क मार्गामीक मह दिला महिता υμείς άδικοιώτα λαβόντες, ου μόνον ου πιωρήσεων, αλλά και μειζόνων αξιώσαντες δωρεών αφήσετε, ως τοις διογέτας; τίνι 38 πώποτε ύμεις έδοτε, έαν όφλη π το δημοσίω, τοίτω μη καταθέντι ηθίσων μετέχεπρούδενί. με τοίνιευ μηδε τούτω δότε νεώ, άλλα πμωρήσαιος, ησι ωξείδειγμα ποιήσατε τοίς άλλοις.

ं तह को हैं।

or det per

طأ وعلم

i Hwaja

a tweat

Tals char

ועדעות אביע אביעו

in yanga

סף, סטיא נוטה

ray oundless

a weighting

धीर देखाई

रण जर्ग मिन्स्या

riy orilajdi. i Humalin

eliv ocyania

नदी नांद्र व्यक्ति

द जर्भावाणिक त ने बेट विश्व

cancer in whi

ALL SHAMP

area King ett a

TOUTOU, 8

१४०५ वर्गवर्धन

ודעם ערסטפונו

का वस्वमध्या

opegroum, s

मही वीशवना

Devay. 89

म्बा रापक

ts. in 37

Branding

रंग की विकास

דסוסטים (ב

25 mage

गाठ में मिली

जाना में

o axerbas

रतिहरमा

निया वंत्रीया

द रंगा पुरस्ताम

OTO THOU

15 9 787 olu

18 15 60

TEE * Sitto dia

Talem autem esfe istum; scienti tibi dicam. Meminitti vt Hegemoné læ sæ maiestatis reum fecerit? vt ab accusando Demade accepta pecunia destiterit? vt Agathonem olearium missum secerit?Cum enim dudum clamitaret & vociferaretur, proh diuûm atque hominum fidem, & pro concione cœlum terræ misceret, quæstiones habendas clamitaret: accepta quacunq; mercede, quanqua prælens, cu is absolueretur, obmutuit. In accusando Democle perduellionis reo, accusationem quò reiecit? Alia infinita sunt, quorum mihi meminisse omniù laboriosum est: te aŭt etia exepla illarum actionu habere scio, qui illi propter prædæ societatem subseruias. * Quis igitur eit, qui talé tuetur?bonus, an malus?malus. Quaobrem? nam & fui similiu est proditor, & bonoru hostis natura & genere. Nisi quis calumniatoris & hominisimprobi semen & rad cem, vt agricola, relinquenda esse censet reipub. Quod non est honestum, Athenienses: atq; itame dij ament, nefas etiam esle existimo. Neq; enim maiores vobis has curias ædificasse puto, vtistud hominum genus in eistaquam viuiradices propagaretis: sed contrà, vt coherceretis & puniretis, neq; quisqua æmularetur, aut appeteret improbitate. Omnino aut id est improbitatis ingeniu, vt line magnis reprimi difficultatibus haud pol lit. Cum.n. Arittogiton in manifestis iniuriis acculetur, & non olim perierit: quid faciendu est, aut dicendu? qui ed venit improbitatis, vt iam acculatus, clamitare, columniari, minitari no defilteret. Quib" .n. vos res maximas credebatis ducibus, quia númos es postulanti no dabant, eis nec fimeta comittenda esse dictitabat:quib.verbis no illos lædebat, no licitum.n.eis erat, paucis numis datis, ea no audire: led veltra suffragia contenebat. & sua improbitate otte tabat, magistratus porrò qui sorte creatur, la cerabat, poscebat, pecunia exigebat, quo moloru genere non vexabat? Postremò aŭtomnes in tumultu & seditione concere studuit, falsis literis propositis: denique in omniu pernicié natus est, & talé se esse tota vita declarat, Ita enim rem perpendite: Athenienses,omtem negocio quopia occupatus, in foro obambulat Imagocafine id fane publicum fit, fine prinatum. Iste autem lumilatonihil quicquam ostendere possit rei moderatæ aut "is, & prihonestz, in qua versetur & vitam agat: non publico vira exagi aliquo bono animű occupatú habet:nő artinő agri-tatio. culture, non vlli quæstui studet: cu nemine vllis hu manitatis aut familiaritatis officiis est coiactus: sed per forum incedit vipere instar, aut scorpionis, erecto aculeo, hucarque illuc faltitans, circumspectans cui calamitatem aut maledictum, aut malu aliquod offerat, quo in timorem coiecto, númos extorqueat. nec ingreditur in vllam publicam tonftrinam, aut myropolium, aut alias officinas: sed infociabilis, vagabūdus, à cogressib. abhorres, no gratia, non amicitia, no vila præditus est moderati hominis cogitatio ne: sed its comitibus quos pictores lemuribus adiun gunt apud inferos, diris, maledicentia, inuidia, feditione, contétione stipatus incedit. Quem igitur nec internales deos placatos habituru verifimile est: sed ad impros relegatum iri propter vitæ improbitatem eum vos delinquentem nacti, non modo non punie tis: sed majoribus etiam donis ornatum absoluctis tanqua bene meritum? Cui enim vos vnquam concessistis, si reipublica debuit, vt mulcia no soluta pari iure viueret cum cæteris?nemini. Quare nec isti nuc cocedite, sed punite, & exemplum in eum edite.

Operaprecium autem est, Athenienses, & catera au A a Ejov de Estv, a at des a Sluajos, naj ra homa anovoas dire. Nam cum atrocia sint quæ modò Lycurgű referenté audinissis, atque adeò ad corum atrocitatem nihil adiungi possit: cætera paria illis, & ab eodem protecta esle ingenio reperiétur. Præterquam enim quod patrem in carcere desertum, Eretria digressus, vt ex phædro audiuistis, mortuum impius iste & netarius non sepeliit, neque iis qui sepelierat sumptus funeris restituit, sed & diem dixit:præterquamquod manus à matre non abstinuit, vt modò è testibusaudiuistis: & sororem suam, no quidem germanam, sed ex illa quocunque modo fusceptam (omitto enim hoc)sed sororem tamen, peregrè abducendam vendidit:vt afferit eius iudicij crimen, quo eum bonus ille frater, eius causa facinoris accusauit, qui nuc ei patrocinabitur: ad hæc quæ tatia funt, aliud nefariu, ô dij immortales, facinus audietis. Cú enim perfofso carcere effet elapsus:ad mulierem quandam confugit, nomine Zobiam, cum qua nimirum olini cosueuerat : ea primis eum diebus, quibus ab vndecim uiris quærebatur, & proclamabatur, occultauit. Postea datis octo drachmis in viaticu, & tunica & pallio, Megara misit. Eam mulierem tam bene de se me B ritam vt prospero fortunæ flatu vtebatur, & dignitatem apud vos obtinebat:aliquid de co conquerenté, & eius beneficij memoriam refricantem, & gratia fibi referri postulantem, primum alapa data, & minis additis ab ædibus ablegauit. Vt auté muliercula non desistebat, sed progressa(vt eius sexus est ingemii)apud familiares de eo querebatur:iple eam fuis manibus prehensam, ad forum inquilinorum abduxit:ac nisi tributum inquilinorum soluisset, vendita eslet per eum, cui salutem ipsa contulisset. Hac verè à me dici ve constet, accerse mihi eum qui mercede sepulti patris eius non recepit: & eius litis arbitrum, quam ei propter sororem venundatam intendit iîte.profer & accusationem: sed ante omnia voca Zo biæ patronum, quæ eum suscepit, & venditores, ad quos eam adduxit.vos autem modò ægrè ferebatis* saret. Nefaria, nefaria bellua est, Athenienses, & immanis. Recita testimonia.

TESTIMONIA.

Quod igitur satis magnum in eum, qui tot & tanta fcelera perpetranit, supplicium statuetur? quæ digna pœna ab eo exigetur? Mors quidem parua mihi vide tur. Quod si vnum adhuc ex privatis eius scelerate factis recensuero, catera omittam. Priusquam è carcere egrederetur, ed contecto quodam homine Tanagræo, qui ad satisdationem tabulas habebat: cum eo congressus, & nescio quid colloquens, surripit ta bulas. Cum autem homo quereretur, & grauiter ferens diceret, neminem alium furripuisse: eò dementie peruenit iste, vt eum verberare aggrederetur. Is verd vt recens atque integer, superat illum iam ran cidum,& diu maceratum. Cum autem eò ventum es set:præmordet nasum hominis, ac tum quidem ea calamitate preffus ille, ab inuestigandis & quæredis tabulis destitit. Post inneniunt eas in arcula quadam cuius iste clauem habebat. Deinde qui in carcere erant, huius modi decretum faciunt: non ignem, non lucernam, non potum, non cibum vllum cum eo effe commnicandu nec accipiédu ob co, ei nec danandu quicquam. Hæc vt à me verè dici constet, ipsum mihi hominem voca, cuius nasum nefarius iste præmorsum deuorauit.

ปะเทณ ารี อังานอง, อบ เปญ อนนี้ ยังงานอง เลา Go hla เอง กลอง. σατε άρπ λέροντος λυκούρρου, τα λοιποι ενάμιλλα τοί-Gis में मांड क्या मांड क्यं क्टि क्यं कि कि में कि मही में मकार्रिय दे गर्ड रिक्मिकार्गिक क्रिक्टिया वेमारे में हैं है है โลร, ผลงะค ที่หอบังฉะาะ อุลเปลอบ ชีงาง วิสเจบาล จ ล้งจะให้รูงถื-कार में पायमें हे ग्रंभ है जिस किए, ग्रंभी है हिंद अर्थ ने कार में कार्या वे महिराकार, केरे रेखे में हैं निथा कर्ड केर महिर करेंड है महि के पाξός μη έποχέιθαι το χείρε, ώσυ ερ αρτίως πιούσατε मूर्ण भी मां हुन मां वें वें रे रिक्ष मां दे विकार को Sugnate las plucioas, Dugartea o cheirne onco dinon βυομβρίω είο 38 τετο άλλ αδελφίω 24, επ εξαγωρή องเรียงโอ, พี่ธุ อุทอา ชอ ร่างผภิทยล ชักร ปาเทธ, ใน เล้า ของของ έλαχεν αυτώ ό χενις ος α δελφός ούτοσι, ο νιώ σιματολογησοριβμος. αρεος ή τούτοις διούτοις ούσην, έπερον δεινόν, διορίξας άπερρα τότε σε ος γιναικά πνα έρχετα, ζω-Βίαν όνομα, η ετύρχουν , ώς έσικε, πεχεπμικός πετέ. κα πρίπει και δ/μοτίζει τας σεφτας αυτον ήμερας επείνη as อีโทรงแมา อีกทุกบราโอง of Evd Esta. หา po รสมโด ปอบอน onτω δραχμάς εφοδίον, Ο χιτωνίσκον, η ημάπον, δείπευ-Levers mispage . Tanthe the air egonor The ta rolaires δύεργετήσασαν αυτόν, ως πολις παρ υμων έπνει, η λαμ-שפים לעם, ווצע שסטולילע דו, מפון דפט דעשי שסטוועוויוסוציםעי, κ) αξιούσαν εὐ παθείν το μου σε στον ραπίσας, κ, απει-Anous arranter boto the cinias. we of our enauto natθροπος, άλλα γιναίου σε γμα επείει, και σε τοιρ γιωρίμοις σεσσιέσα ενεικάλει λαβών αυτός αύδχειρία, क्टरेंद्र के मार्किमामांद्राठ मही महिलांठा वमानुवार में हा मा महा-्रिश्व कारम के पहिलागियां हमार्थ, हमहक्कार को श्रि महत्त्र, के The owner as with airia ezegove in raub we adultin he γω, κάλει μοι τ τίω ταφίω τε παξός ούκ απειληρότα, में में मांद्र ही समाद ही व्यामामांग, कि दें कि माद कर मं वर्ध के बेरिय. hi cos qui ei collectam ad falutem conferrent, accu- C ong enager auto stoi. To en nang offe nane de uor मक्रमक्र कर्क्मका में माद द्विशिवद कर्डियोश, माद किर्विद्व μορίης αυτόν, κή τοις πωλητάς προίς οις απήρα χυ αυτίω. upels of navanteire aprims el To ron écaron gecorner होंद्र में व्यामार्गाता वामकी सवामा १० वहार्मावर्ग में अहांग, ω ανδρες αθωσιοι, η άμπον. λέχε τας μοτυείας.

width as

87 0 5 NO

Chicago Print

1270年五

कार्यम में बे मोड़

11年代の大学

news promy

W and the

6 × 54 25 35

1100, 65 TON EST

academ ain

SOLEMEN AND THE

Mary of the Wall

molecular, in

ים ביו, ועו לכקלון בי

Option w

Sule in the

White a lot o

SHEET ON

29 of identi

Maproeig. Tis own ingwin x To To Too and a no Tolas Ta now near nemonnotos guor ai dinn; no agía nuwela; Javalos un p हैं 401 है कारले क्वांपहत्त्वा है। कांप्रका हो मार्थ है में में विशेष बंगरी मरणाविश्वास्तर्भा तर्व तेशामके देव ज्या. क्यारे पूर्व देहरे प्रेशि देव मह δεσμωτηρίου, εμπεσοίλος αιθρώπου πνός ταναγραίου, कर्रेड सवस्तु नूर्णीय नृद्यायवस्ति हेन्रामाड, कर्डारे ने ने मा λαλων ό, π δήσοθ υφαιρείται το χαμματείον. αίπωμορίου ή η δεινά ποιοιώ ος τον θεφπου , και λεγονίος, όπ oudeis and so upnon) eig to a pixveita Bdenveias is τε τύπεν επεχείρησε τ αίθεσοπου. νεάλης ή η σεσσφατος ων επεινος, ωειω αυτέ τε (αειχου μουν, και πολιω 28 อ่งอง อุนทอที่โดหอ์ของ. พิรู อ์ไ อ์ไร ซอิ วี ที่หอง, ลักออไล ที่ pi-प्य म्हारी ट्रांगिए। में महार किए किए में प्रम्पूर्य का पाक्र होंगे aidesomos Suopsuos, artesn & to reachateior epolvar is मारो, ० मिर्प में में में दिल हैं में दूर में एक कि कि कि कि कि מעדל דמשול סוֹ כֹין דבל סוֹציוֹן בחוד , עוֹן שעפפים, עוֹן אניצייסט, עוֹ

μηθένα μηθενός τούτω κοινωνείν, μηθε λαμβαίνειν, μηθ αμτον τούτω διθόναι. η ότι ζαυτ' άληθη λέρω, η άλει μοι τον αίθερπον αὐτον,οῦ τἰω ρίνα ὁ μιαρὸς δοιά ἐωθίων κατέφαρε.

Maprueia

Maproeia.

والمرادي

407 7 72

וליטורס ליועולט

24、时间

ns, Wiss

े प्राच्या जामा भूजार मानुबन्धि के तर वेस्त्रमुक्त

कं नाथव हेल्ला

Hantolog man

Transadia

n Manor, Em

משמ זות אסנה

LAW 87881, 278

v coopunan

v pama jim. V ova inhid

roles, yayasını

ON COUTES CONTO

जान्य अधिका

एयर को भी

דמנום מנשוט

ός ούχ απείκ

इ का एक जरपार्ग ।

a debe nayen

वंगीय, गार्थ

es amyayyo

TOV EGATOR OF

कित रावकार्य कर

त्यंद्र मी नगरम

LOTEL TENEST

eia; Junda

रकेर हैंग निवंशिव

1 28 विद्यालको

בע דווסק דמובן

नगड,क्लुकार

Raumarin

र का मिकार पार

हारवा हिरीकी

拉加克克斯

Le provision 15

मिल्ला, वास्त्री

Duviar out

MACTE TO SPA

CHATETON COM

Καλών βέρρων ο έπτωρ δημιερρός ύμων γέρονεν. άξιόν γε टेम मह मने माराया कि महमानामर्थमा इंट्रिया कि से निवार में व्यापित भीका मार वाहरत्य कार्यभाव भाव में में मार में महा में में किया किया विपार

Δόγμα. Eir our aix wie de, a aidpeç a luais, ei oi phi 670 mo-माविष्या कार वां वां द्वार हा समस्मिक्षिण करह हो ते लीमा मुख, राज है-านาธิกาท่างต่านก็อะลบางี้ย์ กองพอร์ เรองง เย่ง ระ ลุผมก็อง ะลบ ละเลโลร์กอสาบุนครร คา อีรุคภากสหองของ ชาย งอุนอง สะของ on the month class eig the gas autis na Cashorere; मं में मिनार-ลอนาเมื่อง, ที่ อะอีรอเยององ อักสุของเขาอารู ที่ ที่ ๆไป กล่ององ को वेपस्रविषया परदुर्गण केन्डिनेद्रहेंस क्षेत्र हेंड्स केर्सिन केरिने निन्द हैं वर्षे συκοραντης; άλλ, δυνως τοι είντα ποιών και Ειρύτος ών, έν ล่าล่งสุร ล่ะเ 6วล ไม่ร อัพมาการ่อนรู " อาณ พองอรู ซีก" อย่งอเร र्गात मकारहर हुए। कताहर कथा करिव वृह्त्व का मार्थ हिंग की निवा νον είνοια λοιπή. βού λομαι ζτίω σφόδραν και μεράλδω Syonar dure रवां मार टेड्रिक्ट कर्म, मां प्रेस किं में टेम मार कंड क्रेमिक कंपा रिक्र कर्मित हैं। है कि कि निवास का रहा कि का รกุลผู การฝกางเมื่า แท่ อบานราโทอง กองของ วิธีอีก รี กละ B हिंद केमर विकर्वीण मुखार भक्षार, में मीर धार्म हव वेपार ठेंक्रिस our कार्यांग्य, वामारी कि कारी मार्थ कारी कि कार कार कार कार Caver divouv ED; कि र दे कि का एमें किए के कि सबसे मार्क कि का क्या मिक्किर्द मंग्रामा , हेंद्र माने का निक्ता हु, में निर्मा है हैंद है क्षेत्रं वैत्रवार क्षेत्रवा, उद्देश राहे प्रमान प्रमान कर हैं रही देमस्थाद वेत्तारे क्षेत्रके का के मार्थ के मार्थ में मार कार्यका में वार्तिक कार्यका कार्यका के कार्यका कार्यका में में देखा की פולצוחו, חק פלוטים ד מספה דצה שסיבמה פליינומו נפשיו מופים לב-रिकार्शिय महिन्द्या कि किन्द्रेड किंप रिना प्रथम हिन्द्रा रिना दूरिया के ms downiza who of amsani, Drois exterinoù morov anθεώποις τωνλαμβανω τον τηθ ρονέων α μελοιώ Τα αλ-रेव मा ठींवरंग मवेड देंग रिशेंह्लाइ केंगर मक्ष मार्गाज्य में मुखा ठींड είς το δετιωτήριον κατέθεθε, και αυτέν, κή τον αθελ ρον, δία τουθ υμιν δύνοις 651 ; αλλα και ττ ατοπον. αλλ οπ THE CALLED IN EXUZER arredoning recte; and on a Savoun dur nate prote; के भे on महामह म्योवामक कर्विण कर private; at on deserve to fere telte, देना पर मार्थ हिंग कि मार्थ मार्थ मार्थ างเด็บพลง ลาสภาพง อิยมงายอาเรลา อีก กับ บางสองอบพลง ขอμων η πολιτείας μλυόντων, εκ ένι του αίσεων αυτώ τε των ลสลฟลาทุลมหลิงใต้ ที่บุบพ ซาอร อิราง อยิงอเร; อีก* อุทองง αναιδης βετιζοδί αναιδης όπι τίνος ωνομαίωτη Το άλλων, αλλ πόταν ταμήτε όν ζα μήτ αν χυρμένα ζάυζα τολ-मन मेर्निक में बोबाय प्रधानिक, रिकट दिली माराहा ; में न्याप्य पर्ट πω & જિંદો મેં એ વેર્દો ફરબડ, α μοι ω βαλιπείν έδοξε λυκερ-१०६ हैं। भाग ही कार्रेड एं प्रवेद हामहाँग हेरे की रेरे रेरे गोर्स रहींग τούον, και τα του Του τέ αρανος δ'ίναια. εί τοίνων τίς οφεί-में मार्यमावार द्राम्याय, ठेरी में गर्गहार हा परि इक्वरंग्राम् en oun Anny rad as Edaverouto, usual an injoi redev πιδορι ές πκότες το αργουμίνον ήγειος απαιδή δηλονότι. ค่ะ สามากานนี้ย่อ หลัง (ส. วิ รางอาจานย์ (อ. อย่าง หลับ (อ. พระจุบ मण्डीन दिर्गण केंग क्वाइक द्वां प्रकार केंग्रिस मा महिला, ज्या प्रमाल्य μοινομοι καθ' οις εξρεάρον) πάντες οι ορλισκανοντες opos 3m oavis n as a on sea nescentel who is annonlas าลเลยสู อีรูท่างเราสิญ าอ ออกทุนล ทุนอเร กทองบุญม,แลก-१७१५ रिक्टियरियाहोती हैंन दिने दिहेत्या हेळाडू महम वर्ग टेमनियम, राज माना दिया ou devann में त्र में देश बे ती के बे ती मार्थ, मानू में हा-म्य कालं, नवं nowa d'ingra aparicen निराद्रसङ्ग्र. où ने

TESTIMONIVM.

Egregiorum scilicet operum vobis orator iste artifex extitit. Opereprecium verò est, ex tali ore aliqua oratione audire, aut confilium. Recita etiam præcla rum illud decretum de eo factum.

DECRETVM.

Et non pudeat, Athenienses, cum homines propter improbitaté & fædissima facinora coniecti in carce rem, tatò istu se improbiorem esse duxerint, vt aqua & igni interdixerint:si vos expulsam eum legibus exrepublica, in vestrum numerum recipietis? Quod eius facinus, qua vitæ rationem laudabitis, aut quid potius omnium no ægrè feretis? Nonne impius elt? nonne crudelis? nonne impurus? nonne caluniator? & tamen talis cu sit, & talia designet:in omnibus seper cocionib. clamitat: ego folus adhuc vobis bene cupio comnes isti conspirarutiproditi estisisola mea beneuolentia est reliqua. Inquiram aut in vehemen

tem istam eius & ingentem beneuolentiam, vnde ea lit, & vnde reuera ortum duxerit: vt fi est talis: ea vta mini & freti fitis: fin minus: vti caucatis. Nunquid Ariffoglio inde, quod patré eius capitis danastis, & matre eius ne non be couicta deserta cliétela védidistis? propter hac eum respublice vobis bene velle existimatis? At hoc, ita me Iupiter ou fuos male dique omnesamet, absurdum est. Nam si illis bene mulaatos cupit, & legem naturæ tueturique vna & hominibus arguit. & teris ex æquo est sancita, vt parentes diligant :ma le vultiis, qui illos peremerunt: apparet igitur code elle animo & in leges, & in rempublicam illoru. Sin nullum horum rationé ducit:perquam seire velim, quis com, quem beneuolentiam in parentes abiecif le videcet, ea esse præditum, qua se populum nunc prolequi iactat, crederet? Equidem adduci non poftum: & diis inuifum, no modo hominibus, eum effe puto, à quo parentes negligantur. At hercule quod eius delationes damnaltis, quòd bis in carceré conieciltis, & iplum, & fratrem: propterea vobis bene cupit? fed & hoc absurdum est. An quod magistratu qui ci forte obuenerat, abi ogastis? an quòd violatarum legum condemnastis?an quòd quinque talentis mulctaltis?an quòd digitis enm monstratis,cu mostrare valtis omnium mortalium improbissimum? An quod saluis legibus, & republica incolumi, hac ignominia liberari nullo modo potest? Cur tandem vobis iste bene cupit? quod se impudétem esse fatetur?at impudens ex qua re alia nomen est fortitus, nisi quòd, que uneq; sut, neq; facta sut, ea dicere au-det, propter impudetia: id quite facit. la quæ in accu

dentem putaretis. sin hæc sublata essent:eu qui postu laret. Sic natura comparatum est. Sunt igitur eorum quæ Aristogiton Reipub.debet,tabulæ,leges, quib. inscribuntur omnes qui debent:libelli,tabella iuxta deam sita. Quòd si hæc sublata funt, & expuctum est debitu:nos nugas agimus,ac potius métimur.fin restant, & restabunt donec soluerit, & manent: ifte nihil veri dicit, fed delinquit, & iniurius eft, qui iura comunia extinguere conetur. Neque enim id nuc o milla agitur in hoc iudicio & disceptatione, tantumne ne venit ad debeat, quati mulctat est: sed an debeat? alio qui per causam injoue aggreture.

fatione mihi prætermittere visus est Lycurgus, eavo

bis præstat exponere. Arbitror .n. oportere vos, tan-qua si de privato asiquo debito vestro agercur, sic

in istu inquirere,& in cause hui equitate. Si quis igi-

tur pecunia debere aliqué criminaretur, is verò ne-

garet: fi proferretur tabulæ, secundu quas mutuatus

esset,& astixi essét libelli:eñ qui negaret,viiq; impu-

inique ageretur cu iis, qui ob solam accusatione sut

e mi mu ocor apres, opeines, vui i neiors, oud o rospos Esivari es opeines no deva y an masous of sta

hil deliquerunt, ære alieno erunt obstrictin alius, ma gnis delictis admiffis, si vnam atque alteram pensio nem solverit pristinam dignitaté recuperabit. Tria sunt aut debita quæ inferipta sunt, & propter que est accufatus ac duo quidé*in comentarios relata sút: vnum no est relatum: quòd iste false inscriptionis Aristonem Alopecensem accusat. Næ, inquit : iniufte.n.me inscripsit:pæna igitur tibi, vt par, sumenda est. Sed & luenda primum, & earata habéda necessa riò, que perpeffus es. Alioqui cuius rei pona fumes? Si tibi.n.agere licet omnia quæ cæteris: quæ facta ti bi est iniuria? Agite per deos, illud etiam considerate:fi Aristonem false inscriptionis reum peregerit, quid fiet? expungetur ipse medius fidius, & ille eius loco inferibetur. Sic.n. leges iubét. rectè. V trum igizur ab eo die iste erit ærarius, qui expunctus, fuerit: ille dignitaté retinebit, qui huius loco inferibetur? Ex istius certe postulatis nunc ista eveniunt. Si.n.co quòd inscriptus est, no debet: vbi expunctus fuerit, debebit profectò. Sed hæc non ita sunt, non ita sut. B Verum vbi deletus fuerit, tu no debebit:nunc igitur debet. Qu'id si ille suerit absolutus: à quo recipiet ea respublica, quæ nuneiste facit, cum ea facere ei non liceat? Vnde, quos iste capitis arcessit, quos in vincu la coniicit, passim in iudicio circumies: illi vitam recipient: hi id consequetur, ne crudeliter tractatisint? Quem.n.nec mæqualis iuris & quotidiani societa. tem leges admittunt: is in mala extrema conficit alios: quod fit non recte, necciuiliter, neque vtiliter. Que vbi video:miror sursum deorsum verti oninia. Quid enim fore putatis, li terra surlum, altra deorfun: connersa fuerintihoe fieri neg;pot, neq; debet. Tu verò na fit, cum iis, quib. no licet legibus, veltra volutate licer: cu improbitati honos habetur, virtus abiicitur: cum ius & villitas vincitur ab inuidia: tuc sursum deorsum versa esse omnia est existimadum. lam, reorum quosdam vidi, qui cum ipsis reb. vince Redit ad rentur, & se peccasse inficias ire non possent : tamen eriminatio quia alij ad vitæ moderationem & temperatiam,anem, & to lij ad res maioru gestas & obita munera, al jad eius liz exagita generis alia confugiebant, per ca flexisse Indices ad misericordiam & humanitatem. Isti aut ad locorum illorum nullum, accessim esse video: sed omnia præ cipitia, salebrosa, barathra. Quid enim omnino dicct corum aliquid quæ pater suus secit scilicet? Sed vos illum in hoc iudicio capite condemnaltis, vt impro bum nimirum,& dignum qui occiderettir. At hercu le, si, quod ad patrem attinet, in salebris hæret; ad sua vitam cofugiet vt temperatem,& moderata? quam? eam quam non vixit?in ea enim quam vos vidiltis omnes, non est talis. At heus tu, ad obita munera se recipiet?quando illa, aut vbi?paterna? at nulla funt. fua?delationes, abductiones, accufationes, non munera reperietis. At hercule, vt hæc nulla fint, cognati multi, iíque boni viri, pro eo deprecabuntur? Sed ne que lunt, neque fuerut vnquam. Qui enim ei cogna-2i lint, qui ne ingenuus quidem ett? Vno excepto fra tre istosqui ei nune adest, & præclaram illam litem ei intendit. De quo dicere catera quorlum attinet? frater eius est germanus & vterinus, & præter mala reliqua, etiam gemellus. Is, cætera quidem taceo: sed

propter quæ vos nefariam Theoridem, Lemnia illa,

illam veneficam, tu ipfam, tu vniuer sum eius genus

occidiftis: iis venenis & incantamentis ab eius ancil

la acceptis, que tu eam detulit, ex qua fascinator iste

inscriptish ipsipropteres quod patu atque aded ni- A neaple in enequelion porte, eil on pined is ide ind whiteon, iguod to operado nat awill ear of me puraha ที่ ภาพทนอร, หลู่ แม่ลง วิธิโร ที่ สิขอ หลิโลดอสละ, อีที่จานอร อรลเ हैंन कांग्रा हैं। केंद्र को उन्तेन्य कि वे ही हे मूद्र मिया है के केंद्र टेंग र्ट हे र हार्या व्या मार्थ रेंग रिंठ टेंग केंग का क्या मार्थ की केंग हैं कि का कार्य के कि हैं। ย่งเล่น อังเอา รู่ออลที่ไม่, ลังงิน อิลง อังเอเลร นี้ ลังเอาเล่าอีเง ล่ είσωνα διώκει ναί φησιν άδικως γάρ με γέγεαφεν. δεί δί อะ, พ่อ รื่อเพล, S'inle Auben. อย่างเมื่อ ร้องสุดเข เลยลาง เล μείναι εν οίς πέπεν θας αλάρτη τίνος λή τη δίκω; είρο ล้ะ เรา ของ หล่งของ พองลัง เลือง ของ ลีก Nos; ที่ ที่อีกเทอน; จุลุ่ง री कर्वंद्र प्रदाल , मलमहामा कार्य बरेड को देश में बर्शहकार माद Boundborws में हेड था; देशिय अनिक्रिक में करिय, विदे बोम्भिय φήσεται. ταυ (α 3δ οί νόμοι λέχουσι, καλώς. ποτεργοιώ Sand taums The huseges od who op his the suit of husering o र्टियम्बिक्षिते, देसब्गाद में किलामाद डेड्स के हेम्मूड्यक्षा देन ही ών νου છે છે લે લે છે. ταν (α συμβαίνει εί 3 οτ ές γερεαπίας μή οφείλει επειδών οξαλειφθη σφλήσει δηλυνόπ. αλλ หน รัฐา สนบัโลวบ่น รัฐมาลิทิก อ่าลม อียลที่สุดให้, สรา อย่นอ่อย่-Actionious vue opeixes to d' en autos Sonopopos de T प्रवाहित्य क्यां में मार्गित के प्राण विषय के दिवे दिवे दिवें के कार्य कार्य πόθεν ο ις εξή θανατου πράται, και δεσμού, ωξιίων in The Sugarneiwoi who Tais tuzas, ci 3 To un devant-יישוֹגאיטוֹ שְׁרְצּבּעישׁסוֹ עד בילעים לב שְּבָינְשִיאנים ווּשִיבּבעים ווּשִיביבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיביבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיביבעים ווּשִיבּבעים ווּשִּיבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִּיביבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִּיבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִּיבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּיבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּבעים ווּשִיבים ווּשִיבּבעים ווּשִיבּים ווּשִּיבעים ווּשִיבּים ווּשִיבּים ווּיבּים ווּשִיבּיבעים ווּשִּיבים ווּשִיבּיבעים ווּיבּיבעים ווּיבּיבים ווּיביבעים ווּשִיבּים ווּשִיבּים ווּיביבעים ווּיביבעים ווּיבי najov merovojan Sidoaow oi vopoi Goes To armigov eteegis αίπος γίγνεται ούκος Φώς, ουδέ πολιπκώς, ουδί ώς סט ווישנים בו אושונים באל בשני משול הלוו בו או השות ספשו שמחים μάζω, τάς ανω κάτω γίγνεως. τι ποτ ολεω ε) εανί γι נוני αίω, τὰ d' ἀςρα κάτω γίνη αι; ούν हैंडा परे το γυέλ! unde Sporto and otan offent t voucov un Egest, on Fine TELON GENTORON EEN OTAR " วูง Tornela THA], Ta zensa of Smogoinan oran to dingov @ to oupegovila-म्या मह की ठेंगा में मह व्याल है महाम्य महार वि देश ग्रेंगा हिम हिम् อุปิญ.ที่ ไท่ Given Tivas eidov ริ ล้วผงเ Copy ผง, of Gis aca γμασιν αύδις άλισκομθυοι, εξ ούκ έχοντες ώς οίκ άδικor delea, of who होंद्र में मह Bisu me from Ta, nay owo egoiνω κατέφου τον, οί δι είς τὰ το σο σονων έργα κὶ λείδερ प्रोवड.01 रोड हेम्स्ट्र म्हावर्ष (व. of weig है रे ह० भे कार्या विक-ทาง (บริ ภาครั้งที่สร ที่วุลวอง. เอบาน ค อบาร์งเลออต์รี กπων τούτων βασιμον όντα, αλλά πάν ζα Εποκρημια, φάεαίρας, βαραθεα. τιρο ως αληθως ερει ων ο πατήρ αυτά π πεποίημε νη δίαζά λλά ματερνώμα. Ο ύμεις ον πουτοις าอัเร อาหุณรทยใจเร ลับารี วิณีงลีโอง, เอ่ร การเทองน์ อานาอาหา à Eiou म्हीपकाया. केरेरेक प्रा ठीव का म्हण हिरोप देशा रिश्व मिश्रुका, प्यं किंद्र मरंग मवर्ष्ट्र होंद्र में हतार हांग मव विक्रीहर), बंद क्यφερνα και μέξιονς ποίονς ον που βεβίωκενς ον μο βο παντες υμεις εωράνατε, ουν 65 6ιουτος αλλ όταν, είς τας λείτουργίας δποχωρήσεται; τάς πότε, ή που γεγονήας τάς महि मक हिं ०६; all our sion all ha मकेंद्र saute parent, anazwzas, choligeis, ouzi restoupzias ofphore arrandia και χωείς τούτου, συγγρείς πολλοί και καλοί κάγκου Dascivres autor Laithouray; all out clow, out to Suo To morrore nos of tal of und End Sepu; Thlu ?-का vi dia, हडार बर्टि के कुंड मह देश के बंगार के स्वर्क , मुन् नीय मक्रिका र्रीमिक क्यार ने निक्र के कि की प्रमा क्षेत्र में वी λέρεν, άδελφος δί ές τουτου ομοπάξιος, και ομομήτειος, και σεος τοις άλλοις κακοίς και δίδυμος. Εξίτ, τα μερ άλλα σιωπω. άλλ ερ οίς ύμεις τω μιαρά θεω-

είδα, τιο λημνίαν, τιο φαρμακίδα, και αυτήν, και το χρος άπων απελίεινατε, ταυτα λαβών τὰ φαρμακα, και τας επωθάς δράτης θεραπαίνης αυτής, η κατ επείνης τότ εμεύνσεν, εξ ή το ερ ο βάσκατος ούτο οίπεπαίδε

lautricanii S.

delining of

September of the

With the Wall

のではなりには がん エ

with the said

almost side is

湖湖湖湖

the state of

Capita T

120日からので

वास के कि के किया

an Good agree

वेश्वीत्रक्ष क

WITH THE TELL ?

वं की दिल्ला देव

Kitta Little 74

opinación in

White of orest

OF BUILD IN

E. E. 120 2 E

dio cico Biones

ince the per 20

summe, low

wind to Cal

madidorus and

क्षेत्रस्य विश्व

an unescap

SUPPORT EN WELL

NAK THE LOS

को छिला करानी है

alignetha que co

क्षित्रेका देशकीया

PER TARES IN

BREDDER CE

विष्या प्राप्ता स्थान

WHENEVER 5 I

如此中国

1/65/1001 201

ian escape is a

Statement Laure

THE WALL WITH

Sales Miles

the Hearing Com

व्यक्तियां में मान

ATTURE LANGE TO

म्म केंद्रिय वर

11/24 734 047

र्थ क्छान्त

THE THE PERSON

เลืองกุลยาง ผึง อากาทาโอร าเลือก ของทุกเล. อาร์ร อเน้ ลยางง अद्वामान्स्य वं क्वार ध्वार्थंद; वं श्वार्थंद; वं रोक्षां क्या में मद मब्रेश निका, में क्टुजिनमहाँ हिर्ण रेडािंड हैंद वर्ण हैं वेद वर्ण के कार के कि שמלים דירושות ביי, סיד דסומנידוי ל ונוחי באמצב; דו מנוני אטודוטי, כל મહામાં અડિયો માદ મીં ચે માલા પં માર્ વિવ વ્યવસાલ માથી ગાંતી લોક อมาระสมาณี สลบัล อุธอร ชีมี พอเงอนร์งผง, ลัง บุมรีเรียล-50ς έχων οἰκοθεν έρχεται, έλεον, συγγρώμιω, εξ φιλαιθρω-नामा. केरे से मार्थ पर १ कारी कारण, हरी में माद्र मही माद्र की ทบาน แล้โลงใช้เมลุ . อาลาร์อกอง ลที่ ลบาอร์ ลักลรอร์ เอนอง รที φύσει δήλος η καθ απάντων έχων τού δυ τυρχάνειν παρ בות בנט לותמים ב 651 ל מט דב כ. דוים טונו יטעושי טונוי , א דוים בים אוחיונציוו מפונס או ודפו אין חמוידים לסתבון חלידיפטי לנ-मार्वासिक विकास मार्थ दे की विकास करा मार्थ रहा की विकास की दे की दे नुभावद्वालों में महाक्ष्म दुर्भ कहित्याद्वात्वे नुष्ठ में श वंभी क्ष्म एक मही महित्तक हिर्देश ग्रेस मार्थ दे मही जरता मुझे के नुक्र म, मुझे मार्थ मार्थ द्वार को मान्य απωτας εθ βούλεται. ταυτα γεωργεί, ταυτα έργαζεται. Β केंगु की मामाणामा एड को प्रक्रमा कर, कार्र मह, के को किहद के पाναιοι ναλοίτ αι δικαμως; ξισκατά ε αίος, ο κοινός έχθρος อ กลิภา อีบอนใบที่ร,อาณ แท่ ระ วิที หลุดทอง อุร์ อเ,แท่ รัชาอาณνόν Τα δέξαιτο; ρίχο τοιρίθος; έγω γε νοιίζω. τίνος ή συγγεώμης η ποίων έλέων οί σεσυπο ταν τη εξύοι παρ αυτε -บางค์เลอง อัเ दिले วินงน์ เอบ หลอง อากุลาอ दे บางเอง ากัดปกลรางเอเร, หลางานาโล อาวางานา อาอุดาใน ปกลวง ปายารูปเมื่อเ หลา อัง อัเร อ์ Bล่อนลาอร ซีซีร์ อย่าขอร ผมเผิร หลา πικούς είχειτούτοις υμθροί λαχόντες, δ ανδρες άθω αιοι, τα δίκαια ποιοιώντες, έσω ζου, τους έωδ τεύτου συκοφαίτου εξύοις, και άπεν πφίζοντο, και το πεμπτον μέρος ην Ιήρωνου μετεδίδοσαν τούτω. άλλ ήρε τούτου ππεία και μιαιφονία και ωμότης παρίω και εξητάζετο. our mydia, our proteges in newoustwo chow react σεισες παιμας δεσν δεύ ηλέω. Είτα σοι συγνώμη; πόθεν; में की विषय महिले पढ़ोंद प्रवाद प्रायम रिवाद है रे १० १५ का रे रे प्रकार में कि है। ού τον είς ταυ (α έλεον περοδεδωκας άρισος είδον, μαλ- C Nov of amponeas ones. per on megsocs au ros exwors nophias rai wee Box an irenthous, week routous apoop μιζουκοδό ιπαγονιεί τοίνω απούσετε παί τείς βλασφη-मांत्र वर म्याय मांग वे उठ्छें क्टिंगंको एस में ग्रेमी हैं रहिर्म महा μαλλον αι αυτ μισήσετε, η δικαίως. Φησί οδ πολλοις οφείλειντων δημοσίω. Τέδοις ή πάνδας υπάρχειν ομοίοις εαυτώ έγω ήπολλοις μερο εί) τες πτυχηκό (ας, εί και) δύ संगं म्हणा, मार्राह्म के मार्राह्म के महिला है के विद्रार्ग है कि रविश्व में वैभिक्ष के कार्मिक है है है। है कि मा माने मारे जिलाई πυτω λευπάρχεινοίμαι τέτοις όμοίοις εδε πολλου δεί αλλά κη παν τοιωαιτίον.ούτωσι ή λογίζε એક και μή με Took Brown, w widges a Deward, wis meds open solas uμαςτώ δημοσίω δζαλέγεδαμούτε γώρ 651, μη χύριτο महक्त, हम हाळे ग्रामार्थिक के मेरे हो मही मह बेहत, में का रेवड़, में यूर्य हा-क्यानिक विग्रं प्रथम विद्या कर्किक कर्म हैं मा को ने एक कार किलाबंद, ग्रेंद्र को हुन मध्या मार्थ का निवा में एक मार्थ ने निवा में के จุกันผู้ใช้ไปส.อเรื่อง ขององรรา นอเทล ลอกแทนสโล ทาบาท-หลาม ๆ ขามอร์ดาทอง ค่าร งใน อุ่นอโลม ชน่อเง ล้มชล ท่า 6200-Φημίας άγει, ούν ορθώς , -ούδε σροσπιώντως, ου γάρ βζτν विधानम्बर्धान्त्रम् विधानम् वि would feis ancirous Sourcina, reached anway Davonav nai Seor of 6th Tauth Te Ivaray, Tunhaτος τυχείν, και φίλον έγγυνοτάμθμον, μη διώαδαι ζημίαν άτος σοδύκητον ενεγπείν οίχ όμοιον, οδ.

ac of the

्रेश्वमीयश्री भ जन्मदीर्वा

T anomal

Charante

भेजसार्व केला

So or this

is en and white

4089,767 011

Sov Ger cing

त्मे श्रिकात्मे क्ष

ा है का किया

m, sole place et of manin

to your your

्रिक स्वार्थ में

म व्यक्ति विश्वा

००% हैत रहेत स्था

IV LON EGISPACE

neia mugin

דם סטעמנפטו

GE 25% राजाप्रदेश

pulper, oil

COUTES associa

Sprangang

EXECUTY PHO

A Stoneyus

9 ग्रेंगांदर म

comeso dron best ainth

weezon wy

०६ वंशे विष्ण

ने जार प्रश्नित

EUN 8 02514

פאספוני מאו

मुद्रा मुद्र रेश है

२२ वर्षेत्र शिवा

きんかりをかず

So malare

म्बं धीर्थं वेराइ

वर्द् १०६ , १९१०

military pardier is peraxiler, is roug On Antitous onoir A liberos suscepit, imposturam & fucum facit, & comitiali morbo laborantes se curaturum profitetur, cum ipse omni laboret improbitate. Is igitur pro eo venencus intercedet?homo pestilens?quem qui viderit, abominetur potius, quam alloquatur? qui ipse eum capitis arcessit, cum talem litem intenderet? Quid igitur restat, Athenieses? ea nimirum presidia, Hominie ? quæ reis parata sunt, à reliquorum nostrum natura, crudelis quæque nemo corum qui periclitatur, secum affert: no este mis sed vnusquisque vestrûm domo secum effert, miseri cordiam, veniam, humanitatem? Sed hæc neque ius, neque fas isti nefario impertiri. Cur?quia qua sibi queque legem suopte ingenio sanxisse contra alios constat:eandem eum & abaliis ferre est æquu. Qua igitur legem vobis, aut quam voluntatem habere vi detur Aristogiton in omnes?vtrum vt eos florere vi deat, & beate glorioséque viuere? Vnde aut victitabit?Nam aliorum eum mala nutriunt.Proinde volet iudiciis, certaminibus, atrocibus criminibus omnes conflictari. Hi eius fundi sunt, hi reditus. Quis ve rò homo perditissimus, Athenienses, ter execrabilis, communis hostis, omnium inimicus, cui necterra fruges ferat, nec defuncto sepulturam præbeat, iurè appellabitur?nonne talis?Equidem opinor. Quam autem veniam, quam misericordiam, ij quos calumniis exagitauit, ab eo impetrarunt? quos iste oes capitis damnauit in isiudiciis:ídque priusquam prima suffragia serrentur? Et in quos sascinator iste aded crudelis & acerbus fuit, eos, vos, Athenienfes, qui tu fortito indices eratis, vt æquu fuit, coferuallis, quod ab ilto calumis exagitarentur: & abfoluiftis, & quin tam ifti fuffragiorum partem no dediltis. Iftius aut arerbitas, & fanguinaria mens, & crudelitas præsto erat,& in acie versabatur:non puerulis,non matribus reorum, quarum pleræque senes mulieres erant altantes cum videret,iste monebatur. Tibine ignoscendum? Vnde? aut à quo? aut tuorum liber ûm misereri decet? Minimè verò gentium. Tu misericordiam, quæ erga hos haberi solet, prodidisti Aristogi ton:imò penitus sustulisti. Ne igitur ad eos, quos tu iple ruderibus impleuisti, & muricibus circundedisti portus, appellito. Neque miustu est. Quod si maledicta audietis, quæ in foro obambulans, in vos ingerit:magis etiam eum oderitis, & merito. Ait enim multos debere grario: eosque omnes sui esse similes. Ego verò multos esse calamitosos homines, etsi duo duntaxat funt, fateor. Omnino enim plures funt Calamitos quam oportebat: & neminem alium decebat obæra- & verecun tum elle. Non tamen, ita me dij bene ament, eos i- dos, Aristo stius esse similes arbitror.neque multis est opus. I esse simimo contrarium omnino est verum, idque ita intel-les, homis ligetis: neque me, Athenienses, ita loqui vobiscum, dentum vt qui debeatis ærario, putabitis. neque. n. ita est, abht hoc:neque ego ita elle exiltimo: sed si forte quis elt alicui vestrum sine amicus, fine familiaris in ter illos, quanto eius nomine istum odio prosequi debeat, vobis ostenda. Primum eò quòd homines æquos qui spodét pro aliis, qui humanitatis officia pre stat, atq; ita prinatu æs alienu cotrahut, quique in republică nihil deliquerut, sed fortuna parum prospe ra sunt vii, in eudé secu ordiné ducit, eodémq; conni cio inuoluit:no rectè neque couenieter. Neg; .n.ide eft, Aristogito, neque multis verbis est opus: Tu quia tres ciues decreto facto, indicta causa occidi iussisti, condemnatus es violatarum legum.quod crimen cu morte luendum fuiffet, lis pecunia tibi est æstimata: alius aliquis cum pro amico spoponderit, damnum inexpectatum ferre non potest:non idem est, non.

tura habetis alij in alios, illum tollere & perdere, quantum in ipfo est, hinc perspicietis. Vos, Athenienfes,natura infita,quod dixi,alij in alios humanitate vtentes, quemadmodum cognati in iifdem edibus habitant, sic in vrbe publice habitatis. Quomo do igitur illi? Vbi pacer est, & filij adulti, fortailis & horum liberi, ibi necesse est multas & nulla re smiles existere voluntates. Neque, n. eadé est adolescen tiæ vel oratio, vel actio, quæ senectutis: sed tamen & adolescentes quiequid agunt, si moderati sunt, id ita faciunt, maxime vt prorfus clam habere studeat: fin minus, præ fe ferunt tamen cælandi studium: & natu majores vicissim, fi forte viderint aut sumptum, aut potationem, aut oblectationes immoderatas: ea ita vident, vt non vidisse videator. Ita fit, vt omnia fiant quæ ingenia ferunt, & recte fiant. Ad eundem igitur hune modum & vos, Athenienses, in vrbe habitatis, cognatorum instar, atque humaniter: alij sic aspicietes calamitoforum mala, vt quod proverbio dicitur, B Videntes non videatis, & audientes non audiatis:11li ita ea agant que faciunt, vt eos appareat cauere & verecundari.Hinc communisilla & omnium bono rum causa reipublicæ manet & constat concordia. Hæc Aristogiton adeò præclare fixa natura, & intitutis vestris, couellit, cruit, euertit: & qua oés alis calamitoli absque strepitu saciunt:ea is tantiim no no lis suspensis per agit:non senator, non præco, no pre ses, non prælidens tribus eum cohercere potelt. Si quis igitur vestrum eius petulantia offensus, eu talia & talia dicat agere, cu debeat grario: quid verò, nónne & ille, inquit, arario debet? & *holte qui sque suu nominat. Quare improbitas istius causa est maledictorum, quæ propter istum is funt, qui sunt eius dil fimiles. Reliquum igitur est, Athenienses, iis qui iito liberari cupiunt, vt*freti legum exemplo perspi cuo & illustri maxime, capitis eum condemnent, aut tanta pecunia mulctent, quantam soluere non poteritaliter enim quieti per enm esse non poteritis: id nandumes minum videatis optimos & modeltissimos natura

instinctujomni vlirò fungi officio:alios his deteriores, non aded tamen, vt nimium vocentur improbi, metu vestri turpinimque & verborum, & probroit dolore, cauere ne delinquant. Improbissimos aut, & quos deploratos nominet, calamitatibus & suppliciis erudiri dicunt. At Aristogiton mortales omnes vsq; adeò improbitato superat, vt nec acceptis malis fit factus emendation: fed in iifdem feeleribus & ininriis denuò deprehensus. Tanto igitur nunc ei grauius quam olim est irascendum, quod tum decreta duntaxat contraria legibus facienda esseputabatantic verò hæc facit: criminatur, in cocione orationes habet ad populum, calumniatur, ducit in carcere, maledicit, capitis arceffit, læfæ maiestatis reos agit, in homines honoratos inuehitur, cum ipie ærario deheat. Quo nihil est indignius. Ac admonere quidem iltum, infaniæ fuerit. Qui enim tumultibus, quibus vinuerlus populus sibi molestos monere solet, nunquam cessis, neque commotus est:is vnius scilicet ho minis oratione mouebitur? Infanabile, Athenienfes, illius est ingenium. Oportet igitur, vt medici, cancrum, authulcus erodens, autaliud prorsus immedicabile malum, aut vrunt, aut resecont penitus: ita vos omnes hanc belluam exterminare, eii-

Deindescommunem humanitatein, quain vos na- A ine D'on mo reonles quandes promas, les queis igen con φύσεως το εός αλλήλοις, ઉદ્દા αναιρεί παι Χαθδάρει, το की की कि क्रिक्थ करेंद्र बेरिश्मे रेकाइ, देस्क हामार रह्मार्थिक का λανθεφπία, ώσυ εραί συγγροειμπας ίδ ίας είκεσην είκιας Bree & non oincire on modia. mos Es cheway once name हिना, में प्रेंडिंड को किट, मार्रेण हैं मुख्ये मार्थम्बर मार्था केंद्र , ट्रांमक के ลาลาแท พองงลราย แทชยา อุเอเลร อีรี ดิอบภท์ขอเราย วริ สา นทรี่ขึ้งบ่าร วิธาละเรา เอาละ อีรางที่ จะอำนาร รณ์ วิทยล ลาง อ μως οίτενέοι πάνθ όσα αὐ σεξίπ Τωσιν, αὐ περ ωσι μέξιοι, र्ड के महाठ्या मा अंदेश के प्रमुख्य किया महाठ्या में अंदेश में प्रमुख्य में किया में किया में किया में किया में ने un pairees ? हैं। महत्त्व विवय मेर्वा प्रिया महाहाँ वीत्र कार्य हैं। पर हु। मक्रो १, वर्ष वहित रें रिक्र में रिकार में रिकार मार में महारा में मार्थ कर में मो सं क माद्र पार्टिश्वर, हेन्क नवार में वेट्किंग, केंद्र मह प्राप्त ने निर्मा रेक हवार्यथ्या देन ने मार्गमान निम्हिति मह मार्गित से क्रेंट्डिंगमा में दर्ग उसदामें मक्रेरेक द्रांद्रमहीया कं वर्ण है दिश्या दिनार किंगा मुक् บุนครุงผลที่สารสัปแบลเอง ที่ พองเท อโทยเทธ อาวาใบเหลง เมา कार्या विक्रमान का मिर् देशक विक्रा मह रखे में भार मार्थिक करा ρα, ώς τε το ή παροιμίας, δρον (ας μη οράν, η ακούστας นท์ ลักษ์ยง. อไป อย่าง พอเอเนาะ ลิ ลอสาโอบอน ลัง ลักมุ อุณาะอา อุบาลาชาปุณาอเลา ญ่า ญายบรานางเรา ว่าอย่าง nown in marrow The ana Deer aina मा माठील planta ou-ง เราแลง อ แบงเล. สลบัล Given ลองรองเสอง Ta หลาลังเล่า τω πεπηρότα τη Φύσει, η Εῖς ήθεσι τοῖς ὑμετέρος, κικεί κα) αναιρεί τη με Τρίπει & ά τ άλλων τριτυχημότων है। एड उठ वं पे क्याने महाहा, त्या के दिश्वी povove nadavas देखा Laudios Stewente) ou portavis, 8 universin Ansa-יון סטת וו שפשולף שלטעסע פטאוו דסטדטע אפמדוו לשים בי muddioui ng เมมิ เจ๋ อโร อีลิร์ ล้อยภาสเขย, กบาทปัญ TOU () Tai ि मारा शिमा, में Tai (oper) पर राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र σίω τι δου μαρό δεινά, φησιν, οφείλει, τον εχθον έκαςος cinov & cours were the nounciar the tollowainar chief 6λασφημιών, αρ σει το εχ ομοίων πύτω of 3 τουτων γι Capités de certo scitote Etenim, Athenienses, reliquorum ho- C worlas Dornor rolive Brir, waidpeç a Simaios, rois anax λαγίωναι βουλο ωβοίς τούτου, " ωθράθειγμα σαφίς καί εναργές έγον (ας επ τ νόμων; μάλισα μου θανάτε από ทนที่ ชาย . ค่ วู้ นที่, ของอบโท อากาย คายสามาผล วยทนลานที่, อσον & Δυνήσε) Φέρειν. άλλιη 28 και έςτη απαλλυγή τούτου, σαρώς όπις α છે. κ) ρί, ω αι δρες αθωναίοι, το μο άπων αιθεφπων αν τις ίδοι τοις μορ βελτίσοις η μεξιωτόποις का में में कि कि में कि मार्गिया मार्गिया है मार्गिया में मही नार में मार्गिया egus popi TouTar, Ega j TE movnegis a'gar non Slug To φόδω τω σεος ύμοις, ης τον τοίς αιχερίς, ημη λόγως, ημή ονείδεσην αλ γείν, δύλαβε μθώσις εξαμθρτάνεν. του ή πονη ορτάτοις € τοις εξαγέσοις ονομαζομέροις, τάς γε συμφοράς σωφερνίζεν λέγουση, κποσ ποίνων αριςογέτων TO TO UTOV कि माहार मक्या का कि के माहार मह कार के कि मवीरोंग टेंग वर्ग निम बेर्स हिंगों कार वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग मान πλεονεκτήμασι πολιν είληπίαμ. Ο τοσούτω πλειόνος οργίες वेंद्राठिद दिन एक में कर्लम्ह्लण, देवका मंगर क्रीर मुद्रेवका मंगण कंट्र रहीं की के कार मार्थ में मार्थ में में कि में का कि में में कि में χέτλν, δλαβάλλειν, άχλν βλασφημείν, θανάτου πμαθα, είσαγγελλεν, κακολογείν τοις βλιτίμοις, αυτός έφειλων TE Smartin Toutou 20 ouder 651 devote cov. To who ow ขอบ วิธารีเง าซิงาง เมสงใน. อีร วูชิ อโร อ์ ภิทีเบอร ฉักสง โลร ชีร อังอχλοιωτας εαυτόν νου θείτει Θορύβοις, μη δε πώποθ ύπείξες μηδε διεβάπη ταχύρ αὐ φοντίσειε τι τὰ παρ ένος λόρου.

in an all

iomin.

からからかけから

gradata A.

ouspir du

WATERLETTE !

भिक्तिं स्थित

ment to Se

(12 R) 2 3 A 2

intim Say 3

क्रांस्थ्रम् रह

History and Man

amoin Bal-

Balta Broggio 7

BEREITS GES TO

Sugmana

social mic

BEST STEEL

MOÇA HONETH, MI

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

mus offers and

BUSK KE SAN

detorabless,

BROWNS OFL

Minning il

THE STATE STATE

प्रकेशिक रे प्र

Ginn Book

Triplet, 25

1020

ανίατον, α ανθρες άθωναιοι, το σεσημά όξι το δύτου δεί δη πάνζας, ωσυερία ξοί όταν παρχίνον, ή φαγέδαιναν, η την άνιατωτάτων τι κακών ίδωσιν, άπεκαυσαν, η όλως άπεκο ζανούτω τέτο το οπείον ύμιας εξοείσαι ή-

das on the modeus, ane dein, un des quelvairas n na dein; A cerc è ciuitate, tollere è medio, nec ed vique expe-Eunite Snygord, Shorto, axxà mes di ralindivas. indi भी विकास अर्थिय मार्थमाति प्रार्थी रिक्ट हें मुद्द हें विकार ए, oud क्यλάβρον, μήσε δόκοι ποτέ άλλ όμως πάν ζα το τοι αυζά έno lome, di Duc Boroureverre. Tauter Civu Conov, & air-क्रिद् कें निक्का का कि का का कि का निकार के मार के मार के मार के मार के का कि का का कि का का कि का का कि का का Con al Deconor idnie, un note enasor in of difere, neεμίνες, άλλ δ σε εσυχών αξι πρωρείδω. λυκούρχος whow Tabluar emproperos is Tunteea To Decor, na אמאמו של ביחסופו בישוש ל דסוב מפס שייםנג דסוב עובדבפינה, או πις αρετάς επείνων ανακαλώ, ών ου δε χεόνος το μινήμιω ηθανικει, είκοτως, επολιτεύον Το 38, ούχε τοίς πονη εθτάτοις אמו מיונס שואידמוק סונויבף אבוע אולטידבק במעדינה, סעל דפי כע-मह मार्ग्ड क्रिक्न वेकावाधारह देन वेमेर्गित्राह, वेमेर्ने में process new Thid with rois who ocoperas new gensois THE THE TOWN POLY MON DEGLOSIS MODELLES MAN NO-26 Courses of on moures and Antay To manav Epocov Estoon B का है ती शामा राम, मवर्षण्य मेवा विवर्ष विवर्ष में हार वर्ष में प्र में ผลงาน เครี สาเลราอย์เบบ ประเทศการบาง สาใช้ เมลัง อร์ เลอย์เรา-मांग्रह में देशाय दे मार्गा म्या मार्ग यांग्रिय होड़ हेमड़ा 500 में मारा-oaufing. ท่อนเรื่อยเรื่อง ล่า ปลอง ล่า ใบล้าง, เร เของ อย่างกา τοις νόμοις έξιτε; ποίοις σε σσώποις, η πουν ορθαλμοίς कर्वद हेम्बड्ठ का का महा का मिर्ड महिलेड निर्मा के होड़ के हार्म किए Badierde, all n Bounne De; ou of Show una & Eva ville :nasos warepori nucious (ous voluces mopoliostay, si vuv un B. Carwouver at lois exite anavtes nown nos o rais youμωίαις είς τ αποθπολιν αναβαίνοντες, ταγαθά τη πόλει मर्गिर्वण देसहा, सुद्रों मही नाम हिनेद वंगमही मही त्रुशाइवण, मद्रोग्यामां व मठीद οποις κή τοίς επεί γεαμμασιν εγνωκότες ήτες ή τι ερείτε, ω ανδρες αθωυαίοι; η έρειτε, αν ης υμάς έρωτα γνωείσας του βου Ιηρισα μένους; τι φησετες αρέσπειν τέ 6ν υμίν; και τις ότετο τολμήσων είπειν; τις ο της τούτε πονηρίας μετ αρας η κακής δόξης κληρονομείν βουλησόμθρος, am อบห แบบอรุยิทสรอรุ หล (สากอเฮลอสมุระหอแบ หล (apa-क्षेत्र कार्ड क्ष्मा भाषाव्यास्त्रीवाद, महत्त्व के माइका हार्यहरूद कीοδις, ως ουπ αυτός ουτός όξι. και τί δεί ταυτα στοιείν, ेर्जि किकामारा, मार्थ विम्लास्कर विम्ला मर्वा (व स्वाय असे कियδα, και υμας υμιν αυτοίς και (οις άλλοις άθιυαίοις ά-मकारक एपाएं कि के में कि के में कि कि में मार्थ के कि में मार्थ के में मार्थ के में मार्थ के में मार्थ के मार्थ γιωαικας. εφίκται 20, εφίκται πώντων η τούτου καικοσεαγμοσιών, και πασι βουλομβροις 6ξίν απαλλαγήvy ms rousou nornelas, naj Staleu Sesanora aurov

A STATE OF THE STA

Tayor in

Southing Son

A TOTOLOGY

cos re junduois a a siegum cu formation

opar, श्रुव्याः

egilouning

from ox just

क्रिक्ष्मीहरू

LETTER TO POLICE

roic varies, a

hav allayour

STEEDER SVOY

s econografia

प प्रविमांकि

Againer, humi

TOING WAS

E1, TOVE STORE

to l'(ou, actions

रणम् अभिकार

Diwarou, mile

वं कित्रभव वर्ष

Light Salate

ध्यावय रशाया

anulygin

OLG NY HEGILI

चयद व विशेशक

वंत्रवा सम्भी

००दोद्रास्था १९१

WPTONEH, THE

perpose, THE

TOIVER alla

s premiaria

गर्भ वेठीयान

र्धाय मोश्री

uli real

W TO TTOLEND

, Savaran

थाडिं, वर्णा

NOTE COV. TOP

क्ष्र वंत्रक विद्व

undination

रं अवंद देशकी

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ KATA APISTOFEITONOS

20205 8 8/12/05. ΤΙ μος Είνω οφείλει τος δημοσίο άξι-ह द्वारा मान के पार हे मार है जा कि का कि का कि का कि νόμοι δλαρρήθω άπαρορούουσην ον του Shua un dEavay Gis Toistois Next pa-

veens's Andeden, andres dinasai. dei d' प्रावद बेत्रवारित प्रार्थ वेत्रकां क्ष्म में मक्रियं हार दिएं के ठिवरण प्रारं माद्र मारे हे मार्थ मार्थ में वर्ष देश हैं वर्ष देश हैं कि कार्य मार्थ म

sic reipublice perniciosum sed mature præcauedum est. Sic enim cosiderate: Neminem fortasse vestrum vnquam serpens momordit, aut araneus, & absit vt vnquam mordeat: sed tamen eas animantes, vt videritis, statim occidetis. Ad eundem igitur modum, Athenienses, etiam cum calumniatorem, & acerbum, & natura serpentina præditum hominem videritis, ne dum vestrum singulos mordeat expectate: sed pri mus quisque, qui in eum inciderit, viciscatur. Ac Ly Obrestatio curgus Mineruam obtestatus est, & matrem deum, per exepta in quo recte fecit sed ego maiores vestros, & virtu-maiorum tem illorum inuoco quorum memoriam nulla æui iniedo ilonginquitas obliterauit:neciniuria. Non enim ita metu. répub gerebant, vt improbissimis & caluniatoribus fe adiutores præberent:neque intra pomæria vrbis mutua se inuidia conficiebant: sed vt tum oratores; tă homines plebeies modestos & bonos honorabats ita improbos & audaces oderant, & puniebant. Vnde omnes veluti pugiles honestorum operum extiterunt. V num etiam vbi dixero, desinam. Exibitis statim e curia: spectabit vos corona & hospitum & cinium: & cum viritim fingulos prætereuntes intue buntur, ex vultu coniicient, quina absoluerint. Quid igitur dicetis, Athenienses, si legibus neglectis exiue ritis?quo vultu, aut quibus oculis illorum quemque vicissim aspicietis? Quo pacto tabularium ingrediemini, h quid voletis? Neq; .n. profecto vestit ingredietur, quali leges rate fint, min nuc confirmata illarum autori ate communiter omnes exiueritis. Quo pacto Calendis arcem ingressus quisque precabitur deos, vt & reipublica & ubi lint propitij, siiste ibi fueritinscriptus, & pater eius egregius? li vos contra iuhurandum,& fitam ibi scripturam pronunciaueri tis? Aut quid dicetis, Athenieses? quid dicetis, si quis vos rogitet, cognitis iis qui absoluerunt? quid respodebitis?placere istum vobis?& quis id dicere non ve rebitur? Quis est qui istius hareditatem improbitatis, cum execratione & infamia coniunca adire velit,ac non potius ipfe illum condemnare malit?Execramini igitur eos qui absoluerint: & vnusquisq; eo veluti pignore lanciat, ex illo fe numero non futurum. Et quorsum attinet istud facere, cum bene precari liceat, & omnibus omnia faufta & felicia optare, & vos ipli vobis iplis, & cæteri Athenienses vniuerfi vobis:addam & hospites, & liberi, & vxores. In uant enim; inuant omnes istius nefaria curiositas: omnes cupiunt istius improbitate liberari, & mulctatum cum videre.

DEMOSTHENIS CON-TRA ARISTOGITONEM SE-

cunda Oratio, eiusdem cum superiore argumenti, Hieronymo Volvho interprete.

Ristogitoné debere ærario, & capi tuum deli te diminutu, & legib. esse interdictu da vindine tales homines quiequa pro con uius qua cione dicăt: euidéter oftesu est, Îu-plebelorus dices. Sut aut à vobis repellendi &

cohercendiscum omnes legu violatores, tu verò in primis ij, qui magistratu sunguntur,& in repub.verlantur.Per hos.n.& maximas relpublica clades accipit, si mali sint: & vicissim iuuatur plurimu, fi fint boni viri, & legu studiosi. Quod si républicam capessétibus semel permiseritis v πυομένου. Νά ηθ τέτοις τὰ κοινὰ κὸ βλάπεδαι πέφυκεν αν ωσι φαίλοι κὸ τὰ μέχις α πάλιν ώφελειδαι, εαν ωσιν Memais, ကွဲ ၁ နေလေး ရေး လေးလည်း တွင် လေး ထို ထိုကေန် တို့တွေ တို့ ကြောင့် ကြွန် ကြောင့် ကြွန် ကြောင့် ကြွန် ကြောင့် ကြွန် ကြ

Magistra-



pænas sustinere. Vt enim delictorum, quæ in nauibus committuntur inter nauigandum, si quis nautarum deliquerit, paruum est damnum: sin guberna tor deceptus fuerit, aut aberrarit, communii calamitate vectores omnes inuoluit: Sic & plebeior u peccata non in populi, sed in ipsorum damnum cedut, sed magistratuum, & rempublicam gubernantium peccata ad vos vniuerfos pertinent. Quapropter & Solon plebeiistarda, magistratib. & populi guberna toribus velocia supplicia constituit: quòd existimabat, de illis quonis tempore sumi posse pœnas: hos Crimina- moram vltionis non admittere. Oppressa enim lidentia Avi bertate, qui ponas repetat fore neminem. Atq; hac ftogitonis, instituta nemo ita est vel impudens, vel vestri contemptor, qui refellere audeat, præter Aristogitone, cum viris & eius audaciam & improbitatem. Omnes enim magistratus,&claros in republica viros inueniemus B si quid semel à vobis pronunciatum in eos fuerit, ra tum habuisse. Nam & si quibus abrogatur magistratus, ij statim deponunt munus, & coronas amittunt: & si qui è Sexuiris in Arcopagum non admittuntur:omissa violetia, æquis animis vestra in cogni tione acquiescunt, & hæc merito faciunt. Quemadmodum enim cum in magistratu sunt, à plebeis obedientiam sibi deberi censent: codem modo & iphi depolito magistratu, legibus, reipublicæ moderatricibus, iurè obsequentur. Præterea qui rempublicam administrarunt oës, si è memoria vetustatis ta-Cto initio repetere volueritis: vno modo oés cessisse vestris institutis apparebit. Nam & Aristidem aiunt, à maioribus relegatum, eò víque in Aegina esse verfatum, donec eum populus reuocasset: & Miltiadem atque Periclem condemnatos, hunc triginta, illum quinquaginta talentis solutis, ita demum conciones qui vi boni fecit nihil, ita innumera scelera designa uit,tam expedite,præter & vtilitatem & iustitiam, licentiam à vobis violandarum legum esset consecutus: quum iis qui multa & magna in vos beneficia contulerunt, ea potestas data no fuerit, vt eis aliquid contra leges apud vos receptas agere concederetur? Et quid de antiquis dicere attinet?nostræ ætatis homines considerate, an aliquis vnquam ita extiterit impudens? Neminem reperietis, si accurate quæsiue ritis. Huc illud accedit, si quis decretum aut legem apud Sexuiros accufat: cum lexaut decretum irritum est, tura legislator decretive autor nihil impudenter agere conatur, nihil violenter: sed quicquid vos decreueritis, ratum habet: etsi vel eloquentiæ facultate, vel rerum gerendarum dexteritate inter vos excellat. An verò absurdum non est, cum ea quæ vos omnes in conuentu publico ex legibus decreuistis, fint irrita: Aristogitonis voluntati in violando iure plusquam ipsis legibus tribui autoritatis? Rursus, si quis actionem persecutus, quintam suffragiorum partem non tulerit: cui rei legibus ea pæna definita elt, ne is de cætero accuset, ne in carcerem abducat, ne deferat:eodem modo contra hæc nemo agendum esse putat eorum qui ad hunc modum mulctati funt. Apud solum autem Aristogitonem ex omnibus, nullum neque iudicium, neque lex plus habet autoritaris libidine ipsius. Que omnia sic observasse, neque vos, neque maiores vestros vnquam pænituit.

Est enim hoc status popularis munimetu, hostes vel

uersos, qui in ciuitate degunt, improbitatis eorum

releges, & recepta iura despicere: necesse crit vni- A Cna Capegven T welo popur Ingiav ai angior 650 à שמולמה ציום אמטבוני הי דטידופי ממצומה דסוב עפדינו למה דווב मार्ग्रह्म के कार के मार्थ देश में एका का के का का मार्थ कर के का का Bajves कि राग्द्र मारे कार्ड, जिस्ता कर्र में प्रथमि मह के किए मा Geografian + Gracle leverner อาณา of อายอยุที่การ อากอา φαλη, ή δ/αμθρτη, ποινή τ ατυχαν άπασι τοις συμπλές อาหลารอกเป็นอรา พอนบางธุาน เมื่อ ที่มี เป็นสาม นักมาก μα (a, 8x हो द को कार्र में ठ० द, हो द में wi (a द le ele tre ras 6 26 6 6 6 6 6 6 6 านี้ ๆ ที่มี สคุวอยานาย หลา ทองเรียบอเปล่า เพาะ เรีย นักลงโลร บันลร αρκινεί). διο κο τας πρωείας ο σολων τοις μου ιδιώταις Boadelas हमांगाज्य मबाद औं विश्वाद मवा मांद मामका कार्द्र िक्ट्रांबर 'का त्यादिकांका, " नार्डि प्राणे ट्रेन देश की मार्डि के प्रदेशका के र्वास्थाक प्रविद्या कार्डि में ही किर्माश्य के दे לאוסטעלעסיים אל העשפווסטעלעסט פא טידיביםו, ל המאוניום nasahu Deiong. i) τούτοις Gig Singyous ou deis curaçoute χέρήσει, πλω άριςο ρείτονος τούτε, κό τ τούτε τόλμης κ πονηρίας. άλλα πάσας τὰς αρχάς ης δις πολιΙδομίδοις δύρησομος, έπειδαν άπαξ τι κα (αγνωτε ύμεις, πύτοις क्ष्मा अंगत कार्य भारत है के विश्व के किया है किया के किया के किया के किया के किया में रें। में वर्ष्ट्रवाद,क्रिव्यूक्ष मक्ष महमवर्णिय वर्ष्ट्रिश्चद , म्या रवाद उक्कांगर क्रियांगियां गरि ने ठंगार मेर ने निर्मा मिल मिली हों के ρειον πάρον ούχ οδόν τ΄ έξην ανελθείν, παρέντες το βιάζε-Day, sep pour * Employees & vinerepas moren's rain εικότως ποιέσιν. ώσσερ οδ όταν αρχωσι, Gisidia (as οίον ται δείν αὐτοῖς πειθαρχείν ώσαὐτως όταν αὐτολίδιω. ται χρωνίαι πάλιν, τοίς τ πόλεως αρχουσινόμοις, δικαίας αν ακολουθείεν. επ τοίνων οι πολιτευο ωροι πάντις ον τη παλαιώνει βούλεων αρξάμδυοι χρόνων θεωρείν, ώσου τος φαίνον α και αυτοί εξποντες ώς υμετέροις δικάνις. habuille. Quid igitur fieri posset iniquius, quam si is C acestis lu who yap quan vad The ace join " unan-Devia in airing StafiBen, Ews autor o Shugs ratedifa-C. MATICA lu 3 na Sentra co solas Tir plo Gianosτα,τον ή πεντημονία ταλανία επιτσανίας ούτω δημηρ. peiv, o naj d'en o Calor ai eln อบุเธลุของ เอเร เปม สองกล่า μεράλα ποιήσειντας ύμας άραθά μη τυχών ταύτης τής Suprais . We to word Gironore tore nestritore , making กับ เออส์สารา การะบบผู้ ลาลอง eipyao เมื่อง สนากา में में दिनारी कामार कि, महें पर वर्ष कर कर हरें। एक द वर्षा हिन्दू, @ की व के का मक्हिए में के वीमाया में दिला का मार्क प्रामित Dogwoneiv einnood.noù ti dei ne de de Ei Tu manaiur; αλλά δις εφ υμον αυτίν αναλογισα εξεί τις επις αναι-Sing DEDOVE TOTOTE. OUSEVA DO SUCOITES EL GOUNNOSE QUELβως εξετάζεν. χωείς τοίνων τούτων, όταν τις Ιπρίσματος η νόμου ρεαφωύ άπενεριη σεός τους θεσμοθέτας, ο μορι νόμος, η το γήφισμα άκυ εξν έξιν. ό ή θείς η γρα νας, ouder anaxules Bracophos and o, nai uper Ingiση θε, τούτω εμμερεικάν ή σεσίος τω δ ωία δι λέγλο, में करवारिकार देश देशार अवन् राग मार्क्ड वर्ण वारामार, व मिर्ग वेमवार-TEG ULLETG JUNES SUTEG & INDIGATED TOUS POLOUG AND PA ED To aleso privovos bounou eis to as guopei nuela-महत्वण वीदियेया विद्राण भवाया कारीय मार्ची व इत्राव्या मार्था प्राप्ता र्वेच्ये मद हेमहिं थिए मा महत्त्वरे वित के महम्मीण महिंदु भी भा φων, εφ οίς οι νόμοι κελδίκοι, το λοιπον μη γράφεις, μησ anazer, und conseiday to autor como was aut ou deix oleray deiv mearlew The croxwo duran rollers offτιμιοίς αρισορείτονι δί ως έσπες, μόνω το πάντων ούδι

क्षेत्रके देव वर्षे

10 112 x 10 11 11

Geriforn 5,

THE THE PERSON

東京南京主

विकास को जिला

Medining of

ADM TRUTTOR

इसारम्खा सर्वे ।

wider dry

भी बीर्क एक

18 m/ 18 mg =

WHEN THE ME

wie zug

THE VILLE HERE

εκος ίχω λίγο

Washing and

sum us town

THE DESCRIPTION

ουτε δικας πειον, ούτε νόμος κυριώτεριν όξι της αυτέ βουλήσεως και ταυτα σύτα ε/κρυλάτιουση, ουδί πώποτε ουθ ύμω,ουτε τοῖς σερρόνοις μετεμέλησεν. ές ηδ δημοπεστίας φυλακή το το μερ έχθεσον ή δελουσ

шенов, में का का मार्कित प्रकार के मार्कित है, में उत्तरि के महत्रकर करें िंगमा कर्णिया कर्लारिकी, में मर्क वेगरि मर्गरा प्रवास्त्रिक ownoword ore of copions esquet & we recordar ατυγημάτων τοίς έλληση γρομβροις, της πολεως νώρ สมาชิง เปลอดัง ครุมเงชิงแบบ แลวเรอง และสมอนภาและพรุ ही राध बेर्मायाद दिना मामाद के के का का कार्या है के किया है การ เกรียร์เลร ของ วิบันพร ลาพาร์ เพราสา, อัสสา การ ห์เรอบ-พระพางพบัธรทน (มิ.พ. เปลาที่ รี พองเพ. เบบรอบ ซะ ปุกอเธ-Mans 2000 की कार्यात्म विम्हणहें मुख्य में निर्देश के पर क्षायडार्थि । मार् पठा मार्ड को में स्थाप संद हिए प्रिय कि कि नाड กล์ idos owinelas underi ที่ยี่ ทองเทีย ลยเรอาะ์โองล T8-करो कार्रिक्मी क्या मार्थिय मार्किमा माध्यह होड़ है मिर्क वेगरि मकegrouis केर तो तक का प्रार्थि वह wer प्रवादिशंहर में का तो δω εκίπαι τοι πολύ γενομιμώτερον και δοπαιότερον το ปหอุทานุล อันอ์พาไม้, ซึ่. อบ ขนม ส์รูเอาัร ปุทอุโฮน อิสา์ ออเ าช-שנים ושל של ומשים מסונים מסונים מחום דסוב מסאו לבוב לעם דם ने बरें का मुं को मर्थ का मी दें मां मार्थ का में मारे का महिका महामा क्र हेंग्य में श्री के माद के माद कि τάπουτων δογματα η νόμιμα εκ παλαιε αραδοθέν-किर्यो मी क्रा के का प्रकार के कि कि विकास के कि อรีสโลเบาท น) ของ เรื่องกา อังกา ลที่ เอบ ภทษิทธ. ที่ เรียง เรื่อง เรื่อง हैं की बार हिल्मा क्या मार् मार्ट हिल हैं ए मार्ट दे रिल्यु के हैं मार्ट हैं क्वीं मह नार्वां मुखीं द मार पूर्वक्रिंग, में म्ह्यां वस मार, बंदी मार में di auto าธิาอ dinajus al ซิสาอ วิณเอเร. ยี ว่า อบเมาะ ออบอนง η τοίς πολλοίς ωφέλιμον δία τίνιου τάναντία, οίς αυτός हेन्द्रका बड़, ने मार्गिटकीया पर्णिप्ता वेहानोंदर के हिंदे देस लिए के रीναμα,ούτε ταυ (α έννομα, છ ઈ ευ μρέροντά όξην ύμων. ၁၉ တိ S' บนตัว เาพาง, พื้ ล่ง Spec Suysal, rabtle " you as it you แม่ง เลืองบุบัน ลบางปี. To Nas วิธี cros เลือง หลา Αποίσαιθε ίδιω Το απθεώπων. και (οι πως ου δ δνόν, εφ υwill all an in offeraled ane. Buc Gis vousis on of नी किस्तुविविधिर्मा कार मार्ग मार्ग विद देशके रेक्स मार्थ मार्ग σερασιουμούων ίσρτοις αλλοις εί), ραθυμως ούτως ંત્રુલા કુ રે તે મા મારદ છે કરી કે માર કે 200 ના, છે જ જિલ્લામાં માર્જી ταυθ έτως έχειν ώς έχω λέχω. δ/3 ή τω όπι είπειαν τω मु के Sarousus (a autov. on who) ते मारणा खेड द में पर्वारण admosingras univas egas oluanon To megennusvav hunoupges हमहमहाहुहा on मुझर्ड न्या नाया दे पर कार्य में मार λίζο μάπων αν τις αυτόν θεωρήσειε. τίνα, οδ παραγαγών ers to divastile son winta 6 " Gutter home ratingoegov; n ποίον πορογίμιν πεπορικέν; η τι γησισμα γερραφέν, ώ πειδεντες ύμεις ου πάλιν με ανοήσαι σερείλεδε; η 20* ταυ (α ούτα σπαιος 651, κ) βαρβαρος τ ξοπον, ωθ όταν णस्य ति म मक्ष्रिया कर्ष विद्रमां कर्ष द मायद मार्थ मार्थ रेश मह σενίος παεοξιωθέντας, τίνικαι (a αθρά τίν οργίω), υμύτα βουλήματα λαδών, τοίς καγροίς έναν πουται. δεί οπνπολί εδουδρον τως υμβρείς τοις δεαφνης μετ Μις πάθεσιν ύμιν συμπίπεσιν επακολουθείν άλλα (δίς 16 μηροίς η τοις σε έγμασι & Είς ύπαρχουσι μαγροίς αnotowhen to which to Taxo we Granten ही जाइका रखे जे, ठीव-Musery miliona geovor บาสคราสงาเอ็ก ธังให้ อบอโลง อบาบและ थ्यान का किया है निक्ष के मान के मान के मान के किया है निक मान के निकार के ναθιάζιδζης πύρια, η πάλω άπυρα ποιείν άλλ ίσως δπ 905 ana Tas a el @ couper) roldoper of in μεμφεος * Staw a of τα λερόμουα, of a ταν τα σε εποίνου νυν αυτοι αρμότζες άλλα ταυτά γενή τ άθωναν όνειδος όξη, ανδρες διημεταί τα γιγνόμενα τη πόλει όπι τ βήμαζος, κο

is mater

made roke on lawing on lawing roke

। होड बी नवीं व

Tois popilo

Leas gular

े व्हित्साम्

ज्याने का

soudels win

or revisal

COTE DUCKE, T

BOTOM SAGE

वर्ग्याम् ।

म जिल्लाकर प

3 THE PROPERTY OF

युद् भूष्यंत्रम्

wor, Gillians

OC OTEL WAR

Sonot solding

ं राज्ञीतवा महामित्र

OF COT STREET, O

UMETERICAN

degram in

व विभागवद्भवस्य

Tas Ter wo

CENTRE OUTER

०० राज्य भीगा

עון דעייוון דעי

रदे महामिर्नेजर

io Jest Milas

स्ट्रिक्स स्थान

न्तर करेंगी

यक्षेत्र,धं गर् क्षेत्र

ITESEI GOUNN

יי, סודמיו חקץ

TOUS STOP

11.6 5 96161

'S, naivus

The Suins

CATOTTON, ON

TOUS TOUR POL

o or anomi

। जाजवा; मधी

इंग्टर्सिक मार्ड

whoush paroushous were in the to work to the total and the second to the lentes, fine coactos fuccumbere. Atque hac in huno geri modum oportere, iste ipse etiam manifeste est confessus. Cum enim Hyperides decretum fecilset, postquam Græci cladem ad Cheroneam acceperant, & nostræ ciuitati de ipso patriæ solo maximum periculum impendebat, vi ignominiofis erepta dignitas reltituererur: quò confentientes vniuer ii pro libertate strenuè dimicarent, si quod tantum discrimen reipublicæ immineret : id decretum vt contra leges factum accusauit, & in iudicio causam egit. Quid verò fieri possit iniquius, quam cum Aristogiton ad patriz defensionem nemini passus sit restitui dignitatem : eum ad suam iniquitatem confirmandam id sibi muneris à vobis omnibus tribui postulare? atqui decretum illud multo suit æquius co, quod tu tibi nunc à iudicibus decerni flagitas. Illudenim commune fuit, & æquum ciuibus omnibus: istud iniquum, quod foli tibi ex omni bus ciuibus licentiam tribuat : illud ad prohibendam cam pacem, qua pace vnus dominatu vrbis ondialon & to ply, top is un speat the espluitu, ep & B potiretur: iftud ed spectat, ve supra indicum decreta & instituta, perpetua serie à maioribus tradita, tibi soli potestas detur delinquendi, & agendi quicquid libitum fuerit. Equidem eum rogare cupio, vtrum legitima & iusta ratione decretum illud accusarit: an contrà per iniuriam, & legibus violatis? Si enim inutiliter, x in populi fraudem:propterea iure occidereris: sin vtiliter & è re multitudinis: cur nunc po-Itulas, vt hi decreto tuo contraria decernant ? Sed neque illa iulta, neque hac legitima funt, aut vtilia vou s. Ego verò vos video, Iudices, ita & in vofmetiplos effe animatos. Multos enim iam plebeiorum hominum delatos, atque accusatos condemnastis. Nonne verd iniquum est, contra vosmetiplos ita legum esle observantes : in cos verò qui curiose tuperuacanei aliquid agunt, & publice omnibus negocium facelsont, & suprà alios sese efferunt, ita esse lenes & dissolutos ? Neque enim vlli Anstogito vestrum ita sentiunt, sic quidem, vt ego dico, fieri o nis, hominis & priua portere: led propter Aristogitonis bonitatem, & fru tim & pu Ctum quem ex eo capiatis, conniuendum, etfi paulu blice perna lum deflexerit à legibus. Nam eum esse improbum, & iniusto præditum ingenio, satis vobis, vt equidem arbitror, iis qua antè dicta funt, Lycurgus oftendit. Iam necesse vtilem: ex eius actis in republica perspicitur. Quemenim adductum in indicium, quo rum criminum arguit, eorum conuicit accusando? Quem vobis reditum comparauit? Quod decretum fecit, quod vos secutos esse non pænituerit? Nampræter cætera, etiam ita væcors elt, & barbaro ingenio, ve si quibus vos iratiores esse viderit, & vltrà quam par est, concitatos: tum vestris voluntatibus, ex iracundia æltimandis, * occasionibus aduersetur. Decet autom eum qui vobis consultum velit, non subitis affectibus, quibus iracundia permo ti sunt animi vestri, indulgere: sed rationi & negociis,& temporibus obsequi. Nam illa subitò intercidere solent: hec permanere, & diuturniora esse. Quorum iste nihil cogitans, occulta reipublicæ vitia profert, vt cogatur eadem negocia & rata habere, & irrita facere. At ideò fortaffis quòd in omnes perpetuò studet conuicia dicere, & quiritatur, & orationes interrumpit, nunc eum conferuari conuenit? Sed ita me Minerua amet, quæ nunc pro concio

ne fiunt, dedecori funt reipublicæ: & propter iltoru

miniosum habetur iam à bonis viris è vestrro nume ro, versari in republica. Quod fi nunc alicui vestrum ilta voluptati funt:non decrit copia eorum qui talia factitét. Nam etram nunc iis refertum est suggestu. Neque enim difficile est reprehendere confilia: fed suadere aliquid, & persuadere vobis, vt ea qua opor tet decernatis, id verò difficile est. Ad hac nisi prius ctiam iisdem verbis vos decepisset, cum primilm reus effet factus: ne sic quidem æquum effet contrareceptas leges aliquid ci concedi. Neq; enim si quibusdam violare leges permittitur: postulanda elt, vt ex præscripto legum alij se gerant. sed tamen illo tempore minus absurdum fuisset, et sidem habe Le, & gratificari, & tali aliqua in re conniuere. Quia verò tunc eo absoluto propter spem emendationis, paulo poit eundem istum & dicentem & agentem ea que non estent è republica, denuò puniuntis: que vobis idonea, si nunc decipiemini, relinquetur excu Litio?cum enim testimonia rerum adfint, quid ver- B bis elt opus? Que autem ipsi apud animos vestros nondum satis comperta habetis, de iis sortasse ex-verbis iudicium est faciendum. Demiror eos, qui sentiunt, prinatas opes, iis quos superiori tempore bonos viros fuisse cognouerunt, esse credendas: Rei publicæ communes, ils quorum improbitas nec ab iplis negatur, & palam deprehensa est committendas. Canem quidem ouili degenerem & ignauum custodiendo nemo præfecerit, reipublicæ autem gu bernatoribus plerique dicunt, quoslibet esse præficiedos custodes: qui cum delinquentes se deserre si mulent, ipfi vel in primis custodiendi effent. Que, li fapieris, cogitantes, eos qui se ista ratione vestri amatores elle profitentur, valere iubetistipfique omni modo cauchitis, ne cui licentiam detis legum vio landarum: *eorum præsertim: qui rempublicam capellunt, populimque le & dicendo & decernendo Adhorta defendere, profitentur. Nihil enim fieri queat abfur no adle dius, quam cilm maiores vestri pro defensione legu violatores earum instituere : cum Soloni autori legum, ateam in foro statuam decreueritis: ipsas leges adeò manifestè negligere, propter quas ci tam eximium honorem habuiltis. An verò est rationi confentaneum, cumun ferendis legibus, improbis irafca mini in manifesto crimine deprehensos, indemnes dimittere?cum legislator homo vnicus propter vos omnium odia susceperit improborum:vos nec pro pter vo metiplos, in communi concilio declarare vestrum odium improborussed vaius hominis suceumbere improbitati?cum capite sanxeritis,ne quis legem commentitiam adducat: conniuere, vt veræ leges in commentitiarum numero habeantur? Sic aut acutissime perspicietis, receptis parêre legibus quantum bonum fir,& in despectu & neglectu earu quantum infit mali:fi legum commoditates seorsim & quæ ex violatione legum mala oriátur, ob oculos polita intueamini. Reperietis.n. violationem legum, infania, & intemperantia, & avaritia esfe refertam:le ges prudentia, modeftia, & iustitia fungi officiis:idque minime est dubium. Eas enim vrbes maxime flo rere videmus:in quib.legülatores optimi extiterüt. Nam ve quæ in corporibus oriútur infirmitates, medicorum inuétis curatur: sic animor si immanitas, le gumlatoru prudentia exterminatur. Deniq; nihil ho nestu, nihilexpetedu esse inueniemus, quod à lege sit

pro suggesto temeritatem & desperationem, igno- A sta rais mures Enevias enovelosov non to moder de की के कोंद्र दिनार करिया के कि दिए. हो भी वर्ष मा के कि ลง ทองที่ อบุนธิร์ดิทยง เล่า วิวาออุทธอาร ชาง รณ เอเลบ (a กอก. वर्षण्या देन हो में प्रथम प्राहरण के विष्मा के दिया. ०० की लिलामा τοίς συμβελουομένοις γαλεπόν, άλλα συμβελείσαι π ε महोठ्या नी रहें राज्य र्मा दें निर्माण राम के निर्माण करें निर्माण के निर्माण மிழ் பாய்வு வைச்சுவை கிழ் வயாவித் சம்பாவத் ஆன்றிம்வத வக் DOIS TENTATHOEV UNAS, OT NOWIGETO TO BE TELEVISION OF 1512, TOT En lie who oud out of mayor to a se tous imapper la של המה שוש אל עובו לכן של של של מים מושקע של שונים וה שונים וו के त्राह में काई मंग्राह के हारा कटल मिला को प्रीक्ष के त סנטק שב פלו אם אונד בפין לעם דם הוקצע סמן, אפן אפדמום פלום. अव्याने क्टिंडियों मा में माहास्ता . हमारी में महर वेर्का के नग थंड करवरी वरत में में नियम माने वर्ग के वर्ग का की की का AN CHO NOTOCETE THE TOO NEITTELY ON THE UNIT OF HOTEON ou, at view a Sangguante; we wie 20 Epy w responsible. φατε, τι δεί τοις λόροις πισεύεν; ων ή μιηθέπω τίω δοχιμασίαν έχετε απειδή παρ υμιν αυτοίς οπ τη λεγουθών lows aran region 650 newers Davuale of Exuge The store έχοντων, ώς τε τα μυρί έξα τοῖς οπ Τρί παρεληλυθόπου पृष्ठ्रेण्य वर्णका दिनासारका, का जिद्र की कुरकार्य में करें ate to Bearing, or ου τη πολιτεία ποινά τοις ομολογουμένος δεεληλεγιώς vois ovor pas dois 6 mg enew nos nuna un 6m minusos केर्रियम मध्ये क्वा रेक कर करी को हांद्र किता इन प्र क्या कारिना द τοις τα κοινά πρώττον (ας τοις τυχόν (ας ανθρώποις φαση ένιοί πνες δείν φύλακας εφισάνεινοί σερατοιεμόνοι μηwice Tois a, who Towor (as, with The Merishs elos puraning Seouduos av sas som TE vous, in Dupouply or Tous who out. κοντας τουτώ του λόγω φιλειν υμας, χαίρεν εάσατε αίτοί ή τετ όπ παντός βόπου το βαφυλάξατε, όπως μι-Sevi Sar Loudian, and eges rois vomois moien arhas to gum ob oppetere mortem non dubitarint : vos, nec punire C δωαδαμ σερασδιουμβρων .ώς παιδεινόν δει, ποιμβρ @eggious เลื หรื แท่ หลาย กบปเมือง ของร ของเร มีของท่า σκειν τολμάν. ύμας ή μηθε τοις άμθρτάνον (ας είς αυτοις πριωρείος σε σελέθαι και τον μου ρεάναντα δικομας σόλωνα Ιηφίσαιδζ γαλκοιώ εν αρορά επτομιών ή τ νόμων ούτως ολιγωεριωτας φαίνεδαι, δι οιξπάκενον ν-TEPGAN NOVICES OUNGEBRICE THE DOY. THES IS OUR AN EINTO อบเดิสเของ สีวิจาอง, ครี งานาวิจัดแบรร เมิบ อาวารั ผลิง ได้ราชνηροίς, επ' αυτορώρω δε τινας είληφότες αθώοις εάσετες ng T เป็บ vous Serne eva ov Ca maou isp บุ๊มฟู ame ban-Au τοίς φαύλοις, υμας ή und cop υμβ αυτίνουη outher spirac 6 In Sei East mount as rois mornegis at υρ ένος ανδρός πουηρίας ή τηθ ωμις κο σάνατου μου ωριnevay Enchar, ear TIGER ON CO VOLLON SEGENT GISTOTTES είς τ τρ ουκ ονίων νόμων τάξιν άρον (ας, τούτοις απμωρή-प्रा क्टिश्वियार्थिया में का कार हिंद्य कि जार प्रिकारिश पर Tois nequevous voucis meideds in hinor agador 65, 14 To κα (αφερνείν η μη πειθαρχείν αυ (δίς ηλίκον κακόν εί τα टेंग में। ग्रंथ प्रमाण बेनुक ने के अध्या में अने में की कुण्या का प्रमा Caivov (a σε ο ορθαλμιβύμιν αυτοίς ποιποταμίνοι θιωρήσετε. ουρήσετε 30 τω μεριστά της μανίας και τ' άκοσ-ठांवड में चाद मो हारहींवड चाद ने उत्ते चाद क्रिश्मं जहार, मान व्या opoorums, na) Suggoorums ip a Same a Tourhous Ins 3. And 28 moreon rantas alers, an oinorapas isolule

αν , Εν αις άγισοι νομοθέται γεγονασι τα ωρί γδ εν τοίς σώμασην άρρως ήματα (δίς την ίας ών δίρη μασην καταπαύεται τώς δι εν ταίς Αυχαίς αρριότητας, αί την νομοθετήν Ερρίζουση Χώνοια. όλως δε ούδεν ούτε σε-

in Line way de com

是(1)大学

WHITE THE

Andree from D.

The me place

With Minister

min. Stritt @

With the spirite

Winder y

ungamil) A

MHEIE K

OT जाई देह थे।

the molar, was

à Como d'ade

S DESERVED

WHITE THE PROPERTY

navo undu visso i

mt Sommon

WHITE HELD

of symmetry

mar Ground

What we di

miose Section

なないはずる

四四四十五十二

Cantonian of

her in particular

in the second

भूमाने देश केंद्र

main bail

SEKURAL POP

Hist DEN

A DIGITAL ILL

明的物

επείναι τον όλον πόσμον και τα θεία, κή τοις καλουμένας ώρας, νόμος και τάξις (εί χεν τοῖς όρωμένοις πισεύεν)* Nonen paivelay. 2 อาการครับสาร เกล้า เกล้า ลยางเร่, เอ ανδρες αθωαίρι, βουθύσατε εδρ τοῖς νόμοις, κα ζαληφίσαδε ή τ είς το θείον ασεβείν προκρημένων. Επάντα εαν कर्ष्याम, त्ये विश्वास मार्गाण्डम, दे त्ये मह्येगडस न्माण्डिक.

an on you

Control of Control of

1, 29 1812/

ist Cubu

भ ग्रेड्डिशरेक

ध्यान में हैं।

المن في المن المنا المنا

व्हित्रक्ष्यक्ष

कित्रमान्त्र (क

is on this

मी माध्याका है है ज

KATAN SERVE

Space Thuis

va popishim

ज्येह क्यामिका

as altonia

wed and companies

ezesns sindip

the most color

5, Xarben enn

ट्ये प्रदेशक विकास

ाठाड महासां ग्रीप

ed yearly had he

मार्च हरावा हेड्रा,य

ו אנטעני איסד ו

ठ रक्या विद भी

्रवंभवनवर्ष

००व जाजवान

त्रा, ठी ठाड्यक

- मार्क्ड भे व्याद

क्षेत्र वर्गित्र

ंग्हद् वंग्रेज्य

of july and

कि विभाग की

ड रहाडे महारू

Sagn Jos

as, TOUTOUS

To own 9 wy

वेश्वीं वि

Snainor 19

18 00 3919

TO MODILY

मक्रांतर रूप है।

Desinotex

ojeoupya in diphydan g THO OEXIX, TOY KATA OEO-תפניסט אפשטים.

σινοί ποιλοί, διιμόσιον εντα φανερώς. δίλον δέ έςαι τότο έξ थामंड में रेक्क में रह कार में मी रिन्द्रिक के मार में मा के मिर्ट के อากาหล่างเขา รับเพล่อดง , ที่ ขอบหมท่อดง ล้อในเล่นดง, สุดออเรท็อนง อิรสอนร์va. viu o o lu, ear n's mra plulas un enegen, n'emegiar un ra Ch के मध्यमीन पहिल्ड में रे क्वार, अभावड अमांग्रम नकी अमावतिक नाड़ में के-CHINOUN UN SETTEN ALT EIN. " MY TEIT G., Eas un Tis Sogn Strates eis ind Decide deshedat mya, To nemou รัช กนท์ แล้ (G opeiner To In- B मार्गाक हैं मार्था कर कार्य है है हिंद प्रकार होगीय है है दें है वि वार्मिक महत्र हम दें महत्वां รายราชายนาง, มุ มิ แม่แลง เอ๋ร อาราอเอร ของ ธรองาทางหองาน อุโเบิลเ เมื่อ อมาก มะกุล และกระคระคระท ปร. พ. อากาแลกทานน เออ ที่ย์ อนกลที่ย์ รักอ-Sugarra Lamais aravai xroms zenuarov, a lu icoa Al corovi par's, mirer region depou Departurar eis end Declar a d'inces dcircular Tiv Tartina To Seekerou, wegoog a now Spanuas Ter Tu-मार्गाव की मार्गावा श्रीम महार्थित है। है। है। के कहन्य प्रवा क्वार क्षा प्रवार रेम प्रवेगार. מין אסיבר כו מתאסו נים עוב ביו בין של ביו אסיבים ווים וביו דבו וצי בא מידונוzora รักร ซึ่ง แบบสะงอเร.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ENAEIEIE KATA ΘΕΟxbiacn-

Or matos ที่เมือง ผู้สังครร ปาเลราไ,

Star telovi Decretilus atu moavlog mede τω πόλιν, και όπλον τος δένα τάλαν α, ης δύτου διπλού γεγμημβίου, ώς τε μη- C माभार अरहेर दिया किया किलाने मार्थ के मार्थ के मार्थ कर्मा करा है। ninian, un te and under two regroupos, down the ENDERGIN TOUTHY. C 20 o na THO, W and pro Sincesai, w Trep मकारव महारिष्णिकाद महमार्गामाय, कर्लेद वामवारी वद क्रिकीं परेद भवन्याम् कर्म के अन्य मान्या है के में मान्य है के मान्य The Gire हैं हा पार किर वेपार ही में वारहा शिक्ष में में में Niniar Meron, Jeonphyny 3 05 gi Gis vouse spagas zgapousuov, is συκοφαίτοιω (α πολλοις της πολιτίν, εκ εξον αυτά. εξομα οιω υμήν άπα Των, ω ai spec a Thu aios, και inel δίω, และ divoias ล่นอบังสมุนาบ. เขอตราง เปอ อีก รณ์ สล () Gon-रिकार महाउद्योग्य व नुकार दिवाया, हमाराम वेम माना पहेन क्षेप माना क्रमाएक के वे प्रवास में हैं अया मान है स्वरं, माद सबहे में में में मंक्क वह-देवात divolar, durn Da dan word का महक्क का प्रारं क कि करार है पर्यागा, ठमा, के को dpec dinasal, कर्श में बीठावा (การผลที่งที่ เพียงรูบันลัง ยางท์จะ))บาร ลาง ยองกายงเกาsudate up in is stat week to ve Dearsing nu Do wevor के क्यीय कि में क्रिक्य पर है कार्व जया वन्य प्राह्म की दूर मुक्त אואסוושח ענטו עוב, אי שלבו צלעול מינים ביל דיני כי דיני בי wie wear ugow. wie To plos unde Tov ortweeotierte et , ear μή πς αρα μοι τροικείων βοηθήση, πολλοίς μχο οιλ Αλέξεση λω ενοχος ούνοσί η άπαντας τους πεί ταύπε νόμοις εφαίνετο ανξαθεθημείος, καινότατον ζ τίν έρχων τίν πους τιν αθεί το πλοίον φάσιν δύρισκομέν χερονιμαν.

moroure aroudaion diphotoly, o un voucou nenouvomnes. A alienum. Nam vniuerfum etiam mundum, & numina,& quæ vocantur annni tempora, lege & ordine, si iis quæ cernuntur adhibenda sides eit, gubernari appareret. Excitatis igitur animis vestris, Athenienfes, opem ferte legibus: condemnate eos qui religio nem deorum immortalium violare instituunt. Quæ li facietis: & officio fungemini, & rectiffime pronun

ARGUMENTUM ORATIONIS

contra Theocrinem.

Anc oratione nescio qua ratione in priuatas plerique referent, cum manifeste sit publica: quod ex ipso argumento perspicietur. Mercatores aut nauicularios Athenienses, qui alio quopiam quam Athenas frumentum vexerant, licebat deferre. Lexaut erat, si quis aliquem detulisset, nec actionem persequeretur, aut persecutus quintam suffragiorum partem non tuliffet,vt mille drachmas ærario folucret. quas qui non soluissent, iis conciones habere non liceret... Tertia item lex erat, si quis aliquem per iniuriam asserce in libertatem videretur, vt semissem æstimationis ærario deberer. Epichares igitur Theocrinem detulit, vt qui verba in publico faceret, quod ei per tres hasce leges non liceret. Miconem enim detulisse, vt alio frumentum vehentem, & pravaricatum esse: & curatorem à tribulibus designatum, in rationib.referendis, peculatus damnatum effe, ob eam pecuniam quæ decem heroum sacra esset: tertio Theocrinis patrem in libertatem asseruisse per iniuriam Cephisodori ancillam, & quingentis drachmis eam ob rem mulctatum. Harum igitur rerum delatio, hic agitur, & causa manifeste publica est. Ipsã aut orationem Dimarchi esse pletique putant, quanqua Demolthericis haud absimilem.

DEMOSTHENIS DELA

TIO CONTRA THEOCRINEM,

Hieronymo Vvolho interprete.



Atre nostro, sudices, per Theori- Se patris nem calamitate publica affecto, & Theoridecem talétis mulcato, eaque mul nis vitori Aa conduplicata, vt nullam falutis mendat id spem reliqua habeamus: existima- dicibus. ui, eius veltro præfidio vlcilcendi

gratia,nec atatis,nec cuiuspiam alterius rei ratione habita,istum apud vos esse deferédű.Pater.n. Iudices, cuius autoritate omnia facio, apud oes familiares quiritabatur, si ego, prætermissa occasione hac, qua dum iple adhuc in viuis est, inimicu vlcisci pos sem, excusatione imperitiz arque atatis, neque se fortunis omnibus spoliatum curarem:neque Theocrinem contra leges accusantem, & multos ciuium, quod ei facere no liceret, calumniantem, reprimerem. Vos igitur vēs, Athenieses, oro & obtestor, ve me benigne audiatis: Primum, quod & patrem defendens, & patris autoritati parens, in hoc indicium venio: deinde quòd & adolescens sum & terum imperitus.Quamobrem actum præclarè mecu putabo si beneuolecia vestra iunate, facinora isti Potero demoffrare. Præter hæc ob illud etia Iudices, op proditus su (vera.n.apud vos dicetur) ab hominib. qui, cu ob inimicitias, quas cu isto exercebat, side apud nos inuenissent, auditaque re, supscriptione & strenuam opera pmisiset, me nuc destituto, cu ilto, in meodi scrimine in gratia redierunt. Quare nemo est qui ma hi patrocineturinifi me forte necessarioru aliquis ad iouerit. Ac multis quide ifte delationib. obnoxi fuit omnésq; leges, que ea de re cavet, violanit. Recetissi mű aŭt ei facinoru, nauigij indicatione este reperim"